


एक तरफ जीवन-मौत से संघर्ष... दूसरी तरफ स्कूल खोलने की जिद

संकरी गली में खुलेगा स्कूल

नियम-कायदे ढोकर में

खुलासा
EXCLUSIVE



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एक तरफ जीवन मौत का नित्य संघर्ष चल रहा है। दूसरी तरफ स्कूल माफिया, स्कूल खोलने पर आमादा हैं। एक तरफ एक पुत्र, याददाश्त खो चुके गंभीर बीमार पिता को किसी भी तरह के शोर शराबे से बचाकर स्वस्थ रखने के पुरजोर प्रयास कर रहा है। अस्पताल और घर के बीच दौड़भाग नियमित दिनचर्या का हिस्सा हो गई है। दूसरी तरफ स्कूल वाला खम ठोक रहा है जो करना है, कर लो, स्कूल तो खुलेगा। एक तरफ कैंसर जैसे असाध्य रोग से जूझती माताजी और सेवा करता एक अन्य पुत्र है। दूसरी तरफ रहवासी मकान में व्यवसायिक गतिविधियों के तहत स्कूल खोला जा रहा है। रहवासी विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर साहब तक दरखास्त भी की है। नगर निगम के जिम्मेदारों को भी आगाह किया है। बावजूद इसके स्कूल माफिया रहवासियों के सामने खम ठोक रहा है कि कुछ भी कर लो, स्कूल तो खुलेगा।

यह मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की दुबे कॉलोनी (शिव मंदिर वाली गली) का है। यहां सड़क की चौड़ाई मात्र 4.5 मीटर है और मौके पर सिर्फ 3 मीटर जगह उपलब्ध है। इस गली के मकान नंबर 15 दुबे कॉलोनी पर बने आवासीय भवन को जॉनसन आइसक्रिम वालों के परिवार ने खरीदा है और उसको स्कूल संचालन के लिए किराए पर दे दिया है। स्कूल संचालन को लेकर कॉलोनी के रहवासियों ने आपत्ति ली है और कॉलोनी के सभी रहवासियों ने आवेदन तैयार कर उस पर अपने हस्ताक्षर करके मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय में हुई जनसुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। बावजूद इसके स्कूल संचालक, स्कूल खोलने पर आमादा है।



9 फीट की संकरी गली में बड़ा स्कूल खोलने की तैयारियां, रहवासियों ने विरोध का खोला मोर्चा

रहवासियों को भारी दिक्कतें

सिर्फ 6 मकानों वाली इस गली में 3 मीटर की सड़क की उपलब्धता होने पर भी यदि स्कूल का संचालन किया गया तो कॉलोनी के रहवासियों का जीना दूबर हो जाएगा। जहां स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, उसके ठीक सामने वाले मकान नंबर 12 में बुजुर्ग रमेश प्रसाद तिवारी रहते हैं जो

पिछले 6 साल से बिस्तर पर उपचाररत हैं। वर्तमान में वे इंदौर के ही आदित्य हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिसकी तस्दीक की जा सकती है। उनका अस्पताल और घर के बीच नियमित संघर्ष चल रहा है। प्रस्तावित स्कूल ठीक पड़ोस वाले मकान 12 जयश्री सिडिकेट कॉलोनी के निवासी जेठानंद रामनानी

की पत्नी कैंसर की पेशेंट है और उनका भी इलाज चल रहा है इसकी भी तस्दीक की जा सकती है। जिलाधीश कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान भेजी गई शिकायत में जेठानंद के पुत्र ने अपनी माता जी के संबंध में संपूर्ण जानकारी भी विस्तृत रूप से दी है।

मास्टर प्लान के खिलाफ

इंदौर मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधि का निर्माण किया संचालन स्वीकार्य गतिविधि नहीं है। इसके लिए न्यूनतम 12 मीटर की सड़क होना अनिवार्य है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी कॉलोनी के भूखंड पर स्कूल का संचालन होगा तो वह कॉलोनी के लेआउट में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है।

शोर नियंत्रण कानून भी नहीं देता इजाजत

मद्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि आवासीय क्षेत्रों में शोर को नियंत्रित करने के लिए किसी भी गतिविधि का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उसी अनुमति के अनुसार नियत दिनांक या जारी की गई समयावधि तक ही उस गतिविधि को किया जा सकेगा जिससे शोर उत्पन्न होता हो।

क्या कहता निगम का कानून

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के परिपालन में मकान नंबर 15 दुबे कॉलोनी को जारी की गई भवन अनुज्ञा आवासीय मकान की है ना कि स्कूल भवन की। स्कूल संचालन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार इस भवन में ओपन स्पेस, प्लेग्राउंड, ओपन टू स्काई, विकलांग पाथवे और अन्य कोई भी सुविधा नहीं है। भवन में सिर्फ दो कारों की पार्किंग का स्थान छोड़ा गया है, जबकि स्कूल का संचालन शुरू होने पर इस गली में दिनभर बड़े वाहनों का आना-जाना शुरू हो जाएगा।

देर रात 3 बजे... तक चालू था पब निकलते रहे मदहोश युवक-युवतियां डियाब्लो पब... टेंगे पर नियम-कायदे



डियाब्लो पब में देर रात चहल-पहल रही।

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

आबकारी विभाग और पुलिस लाख कोशिश कर ले, लेकिन शहर में संचालित कुछ पबों को इससे सरोकार नहीं है। जिम्मेदार विभागों की नाक के नीचे निर्धारित समय के बाद भी ये पब देर रात तक ना केवल चालू रहते हैं, बल्कि इनमें शराब भी परोसी जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदार विभागों के सोने के बाद यहां रात गुलजार होना शुरू होती है।

कल रात भी शहर के न्यू पलासिया चौराहे के पास स्थित कर्मशियल इमारत से संचालित पब का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। पलासिया थाने से 100 मीटर दूर न्यू पलासिया चौराहे के पास शेखर सेंट्रल कर्मशियल इमारत है। इसमें डियाब्लो रूफटॉप पब है। मुंबई के इस पब की इस इंदौर ब्रांच में कल रात करीब पौने तीन बजे तक भी लोग बाहर पार्किंग में टहलते रहे। वहीं, ऊपर पब में लोग मस्ती में तेज म्यूजिक की धुन पर मदहोश होकर झूमते रहे। रात 3.30 बजे तक भी लोगों की यहां आवाजाही होती रही। ये लोग सड़क पर भी टोली में घूमते और टहलते रहे। लम्बरी कारों की भी आवाजाही यहां से होती रही, लेकिन मजाल है कोई भी पुलिसकर्मी यहां पहुंचा हो। आबकारी विभाग तो जैसे लंबी तानकर सो गया हो। खास बात यह है कि पब के अंदर के सीसीटीवी चेक किए जाएंगे तो पब के देर रात तक चलने का खुलासा हो जाएगा।

नाइट लाइफ कल्चर की आड़ में चल रहा सब

प्रशासन ने शहर में नाइट कल्चर की शुरुआत के लिए सुपर कारिडोर के 100 मीटर दायरे में मॉल, दुकानें और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी थी। इसी का फायदा उठाकर पब का संचालन बेधड़क देर रात तक पब चला रहा है।

समय-समय पर करते हैं कार्रवाई

नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जाती है। हाल ही में उक्त पब पर कार्रवाई की थी। संभवतः कल पुलिस की गश्ती टीम का वहां से गुजरना नहीं हुआ। आगे से विशेष ध्यान रखेंगे।
संजय सिंह बैस, टीआई पलासिया थाना

एक नजर में....

मैदान में गंदगी करने पर दो हजार जुर्माना वसूला

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | नगर निगम जोन 1 वार्ड 16 स्कीम नंबर 155 मैदान में विवाह समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के बाद

जूटन थैली में भरकर मैदान में रखकर छोड़ दी। इस वजह से आवारा श्वानों ने उसे फैला दिया। इससे पूरे मैदान में गंदगी फैल गई। सहायक सीएसआई भरत

स्थल पर खाने की जूटन थैली में भरकर मैदान में रखकर छोड़ दी। इस वजह से आवारा श्वानों ने उसे फैला दिया। इससे पूरे मैदान में गंदगी फैल गई। सहायक सीएसआई भरत

करोसिया ने बताया कि वार्ड में निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई जाने पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले की जानकारी लेकर उनके घर जाकर 2 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान वार्ड दरोगा भी साथ थे।

नगर निगम कर्मचारी पेढ़ी के चुनाव 11 अप्रैल को

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | नगर निगम कर्मचारी सहकारी साख संस्था पेढ़ी के नौ सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव 11 अप्रैल को होंगे, जिसके लिए मप्र राज्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रफुल्ल जोशी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। पेढ़ी के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 73 वर्ष पुरानी पेढ़ी का टर्नओवर लगभग 40 करोड़ रुपए है। मौजूदा में पेढ़ी के 2608 सदस्य हैं। यादव ने बताया कि इस बार चुनाव राजेंद्र यादव व प्रताप करोसिया के नेतृत्व में लड़ेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर नाम प्रदर्शन के लिए लगने लगे फ्लैक्स

बकायादारों के नाम का अनाउंसमेंट शुरू

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

शहर के ऐसे बकायादार जिनके द्वारा संपत्ति कर और अन्य कर की बकाया राशि का बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनका नाम सार्वजनिक करने के साथ ही संबंधित बकायादारों के घर एवं क्षेत्र के आसपास निगम राजस्व वसूली अभियान के तहत अनाउंसमेंट कर सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैक्स लगाकर उनके नाम प्रदर्शित किए जाने लगे हैं।

आयुक्त प्रतिभा पाल की फटकार के बाद चेतें राजस्व विभाग के अफसरों ने दूसरे दिन भी वसूली के दौरान सख्ती बनाए रखी। इसके चलते विभिन्न जोन में सहायक राजस्व अधिकारी अमले के साथ वसूली करने पहुंचे। कई स्थानों पर अपर आयुक्त राजस्व विभाग अभिषेक गहलोत की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। शनिवार को सहायक राजस्व अधिकारी जोन 7 ऋषि दुबे द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 78 पार्ट 2 और योजना क्रमांक 114 पार्ट 1 नगर पालिक निगम इंदौर जोन 7 के वार्ड 32 एवं 34 स्थित भूखंड धारकों के भूखंडों के सम्पत्ति कर की बकाया राशि होने से नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 173,174 एवं 175 के अन्तर्गत उक्त राशि की वसूली के लिए प्लॉटों की जब्ती-कुर्की कर राशि वसूली जा रही है। इसके चलते बकायादारों के नाम सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैक्स लगाकर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इंदौर
श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मॉन क्र. 07

क्र.सं.	वार्ड	प्लॉट क्र.	सम्पत्तिकर/अभिज्ञे	सम्पत्तिकर/अभिज्ञे का नाम	पता	राशि	वसूली
1	7	32	1000984709	बकाया देना बकाया	43, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	341160	
2	7	32	1000984879	बकाया देना बकाया	783, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	318945	
3	7	32	1000984639	बकाया देना बकाया	18-3-5-ए, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	278801	
4	7	32	1000984962	बकाया देना बकाया	12-3-3-बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	278801	
5	7	32	1000984783	बकाया देना बकाया	134, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	259533	
6	7	32	1000985051	बकाया देना बकाया	225, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	257266	
7	7	32	10009849414	बकाया देना बकाया	228, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	233710	
8	7	32	1000984420	बकाया देना बकाया	602, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	173059	
9	7	32	1000465558	बकाया देना बकाया	44-ए-5-ए, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	160545	
10	7	32	1000985958	बकाया देना बकाया	73/ए/6-बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	160545	
11	7	32	1000981510	बकाया देना बकाया	140/ए/ए/सी/ए-4, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	146082	
12	7	32	1000984428	बकाया देना बकाया	52/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	130542	
13	7	32	1000988365	बकाया देना बकाया	168, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	137930	
14	7	32	1000982952	बकाया देना बकाया	82/ए, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	124689	
15	7	32	1000983608	बकाया देना बकाया	273, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	124915	
16	7	32	1000986267	बकाया देना बकाया	7/ए-2/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
17	7	32	1000986136	बकाया देना बकाया	23/ए-2, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
18	7	32	1000986385	बकाया देना बकाया	26/ए-2/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
19	7	32	1000986386	बकाया देना बकाया	29/ए-2/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
20	7	32	1000985338	बकाया देना बकाया	1/बी/ए-2, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
21	7	32	1000985266	बकाया देना बकाया	8/ए-2/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
22	7	32	1000985245	बकाया देना बकाया	5/ए-2/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	
23	7	32	1000985244	बकाया देना बकाया	4/ए-2/बी, कर्मनगर, वार्ड 78, पार्ट-2, इंदौर	100530	



कुर्की की कार्रवाई

बकायादारों से वसूली करने के अभियान में सहायक राजस्व अधिकारी प्रतीक भिडोरिया ने शांतिबाई इलियास बी पता 14/1 उषागंज इंदौर पर 1,45,02487 रुपए टैक्स की राशि बकाया होने से 14 दुकानें जब्ती-कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल भी मौजूद थीं।

होटल सील की

सहायक राजस्व अधिकारी जोन 7 वार्ड 31 में सम्पत्ति जल कर राशि 31785, कचरे का अकाउंट न प्राप्त होने से विनोद खुराना पता 96 डब्ल्यू बी स्कीम 94 में जब्ती-कुर्की की कार्रवाई में होटल श्रीदत्ता और रिलेक्स सील की गई।

रिमूव्हल विभाग के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद कर्मचारियों में गुटबाजी शुरू

वसूली की राशि में प्रभारी का भी हिस्सा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

नगर निगम रिमूव्हल विभाग के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम पैसे लेने के मामले का खुलासा होने के बाद चार कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इसके बाद गुटों में बंटे विभागीय कर्मचारी कह रहे हैं कि वसूल की जाने वाली राशि में रिमूव्हल प्रभारी का भी हिस्सा रहता है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए।

नगर निगम रिमूव्हल विभाग इन दिनों सुखियों में है। रिमूव्हल सुपरवाइजर सहित चार कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद कर्मचारियों में प्रभारी के प्रति नाराजगी का माहौल है। इसके चलते कर्मचारी दबी जुबान से कह रहे हैं कि ठेकेदारों, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों या किसी भी तरह की वसूली में रिमूव्हल प्रभारी बबलू कल्याण का भी हिस्सा रहता है। कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। राजबाड़े के फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें हों, सड़क पर लगने वाले ठेले, एबी रोड शॉपिंग मॉल के सामने लगने वाले ठेले हों या मेघदूत पार्क के सामने लगने वाली चाट-चौपाटी हो, सभी जगह से रिमूव्हल विभाग को नियमित पैसा मिलता है। इस पैसे की वसूली कर्मचारी करते हैं और उसमें से रिमूव्हल प्रभारी को भी हिस्सा दिया जाता है। इस तरह रिमूव्हल प्रभारी को मामले की पूरी जानकारी रहती है।

24 घंटे 365 दिन
खुलासा फर्स्ट

नगर निगम कर्मचारियों की गुंडगर्मी और दमगर्मी इतनी बढ़ गई है कि सड़क किनारे व्यापार करने वाले ठेले और रेहले वाले परेशान हो चुके हैं। रिमूव्हल विभाग के कर्मचारियों का यह काम करना है कि स्ट्रीट जहां भी ठेला लगाया है वहां लगाओ, लेकिन हर महीने 1500 रुपए देने होंगे, जो ठेकेदारों को नहीं देना उचित समान जल कर लिया जाएगा। वहीं जो बाल नहीं मांगे उसका सामान देने सहित जल कर लिया जाएगा।

नगर की रिमूव्हल गैंग कर रही अवेध वसूली
खुलासा STING

1500 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त नाम पर देते, रेहले वाली की सम्पत्ति जल कर दर बढ़ाकर नरेशों से संग रहे

रौशन मीठिया पर बीबीडी कारगर रिमूव्हल गैंग गुंडगर्मी करके कर का नाम देकर रेहले वाली की सम्पत्ति जल कर दर बढ़ाकर नरेशों से संग रहे

रुग्ण नहीं देते पर भी सामान जल कर लेती हैं

अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी

गरीबों को लूटने वाले चार निगमकर्मियों बर्खास्त, एफआईआर दर्ज

उपायुक्त लता अग्रवाल की जांच रिपोर्ट पर निगमायुक्त ने जारी किया आदेश खुलासा फर्स्ट... इंदौर

निगम में रिमूव्हल विभाग के कर्मचारियों द्वारा गरीबों को लूटने वाले चार निगमकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है।

जब्त सामान हो जाता है गायब

रिमूव्हल विभाग द्वारा शहर में कहीं भी कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर सामान जब्त किया जाता है, लेकिन जब्त किया गया सामान निगम के मालखाने में पहुंचने की बजाय रास्ते से ही गायब हो जाता है। इस तरह की अब तक किसी भी कार्रवाई का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो इसकी पुष्टि आसानी से हो जाएगी। जबकि मालखाने में टूटी-फूटी गुमटियां व अन्य सामान पड़ा रहता है।

जब्त सामान की नहीं देते रसीद

निगम सूत्रों की मानें तो रिमूव्हल विभाग द्वारा कार्रवाई के नाम पर दुकानदारों का सामान जब्त किया जाता है, लेकिन कभी भी दुकानदारों को सामान जब्त करने की रसीद नहीं दी जाती है। कर्मचारी मनमाने तरीके से सामान जब्त कर चल देते हैं। इस कारण रिमूव्हल कर्मचारियों से सामान लौटाने की गुहार लगाते हुए कारोबारी उनके पीछे-पीछे ही चल देते हैं। सेटिंग होते ही जब्त सामान रास्ते से ही लौटा दिया जाता है।

कहने वाले गलत बात करते हैं। मेरे खिलाफ कोई प्रूफ हो तो बताएं।
बबलू कल्याण, रिमूव्हल प्रभारी नगर निगम



हिंदुत्व का नारा बुलंद करते निकली भगवा यात्रा



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

शहर में आज सुबह भव्य भगवा यात्रा निकली, जिससे पूरा शहर भगवामय हो गया। यात्रा में शामिल 21 रथों पर विभिन्न संत-महंत विराजित थे। रास्ते भर लोग जय जय सियाराम व हिंदुत्व का नारा बुलंद करते चले। यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई थी।

यात्रा के संयोजक नानुराम कुमावत ने बताया कि यात्रा सुबह करीब 9.30 बजे लाभगंगा गार्डन से शुरू हुई जो रेडिसन चौराहा, पीपल्याहाना चौराहा, आजाद नगर, शिवाजी प्रतिमा चौराहा, पलासिया, एलआईजी चौराहा, पाटनीपुरा, मालवा मिल चौराहा, रीगल तिराहा होते हुए राजवाड़ा पहुंचेगी, जहां देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का पूजन किया गया।

यात्रा में 21 रथ शामिल थे, जिनमें विभिन्न संत- महंत- साधु- महात्मा विराजमान थे। यात्रा के दौरान लोगों ने जय जय सियाराम के जोरदार नारे लगाए और हिंदुत्व का नारा भी बुलंद किया। यात्रा के दौरान पूरा शहर भगवामय हो गया। यात्रा का स्थान-स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्पवर्षा की।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ अनफॉलो ओए इंदौरी

फैंस ने बताया दो कौड़ी का स्टार
खुलासा फर्स्ट... इंदौर

नशे में तेज कार चलाकर रिटायर्ड पुलिसकर्मी नानुराम यादव को टक्कर मारकर भागने वाले और एक मासूम युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले यू-ट्यूबर रोबिन जिंदल उर्फ ओए इंदौरी की हरकतों का खुलासा खुलासा फर्स्ट द्वारा लगातार किए जाने का असर होने लगा है। सोशल मीडिया पर युवाओं ने अनफॉलो ओए इंदौरी पोस्ट डालना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई यूजर्स ने पोस्ट डाली है। पोस्ट के साथ खुलासा फर्स्ट की खबर लगाई गई है।

इंस्टाग्राम यूजर सुमित चौधरी ने लिखा समाज, यूथ और सब के लिए यह कोई आदर्श नहीं है। ऐसे लापरवाह और गंवारों को उनकी असली जगह दिखाना जरूरी है। एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा नशे में गाड़ी चलाकर पुलिसकर्मी को टक्कर मार कर खुद को बचाने के लिए जो व्यक्ति अपने माता-पिता के कार में होने की झूठी बात कहे, वह किस किस्म का होगा, समझा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी का आदर्श नहीं हो सकता। इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस तरह की कई पोस्ट इंस्टाग्राम पर हैं।

रील्स बनाकर स्टार बना रोबिन जिंदल उर्फ ओए इंदौरी जिन लोगों के दम पर स्टार है, उन्हें



कुछ नहीं समझता। जो लोग उसे फॉलो करते हैं, जो उसके फैन हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। पिछले दिनों नखराली ढाणी पर रील शूट करने पहुंचे रोबिन से मिलने कुछ फैन खड़े थे। उन्हें रोबिन ने 2 घंटे खड़ा रखा और मिले बिना ही चला गया, जिससे फैन काफी निराश हुए। उनमें से एक ने उसे दो कौड़ी का बता डाला।

बेमौसम बारिश से बढ़ा बीमारियों का खतरा



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मौसम के मिजाज में हो रहे बदलाव से बीती रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बेमौसम हो रही बारिश से मौसमी बीमारियां पनपने का खतरा बढ़ गया है। शहर सहित देश भर में एच2एन3 वायरस का खतरा बना हुआ है। वहीं दिन में गर्मी और रात में ठंडक होने बीमारियां फैल सकती है।

मार्च में ही गर्मी के तेवर तलख हो गए हैं। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गर्मी और ठंडी हवा मिलते ही सीबी क्लाउड बनकर बारिश कर रहे हैं। बेमौसम बीती रात बारिश

फसलों को खतरा

बेमौसम बारिश होने से फसलों को खतरा बढ़ गया है। किसानों की चिंता है कि खेतों में खड़ी गेहूँ की फसल सहित अन्य फसलें बारिश होने से खराब हो सकती है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने से फसलों खराब हो गई हैं। इसके चलते मालवा में भी किसानों की चिंता बढ़ गई है।

हुई। इससे सुबह मौसम में ठंडक का अहसास हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में बादल छाने से तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रात का तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिन में गर्मी और

रात में सर्दी होने से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि मौजूदा में कोरोना वायरस एच2एन3 का खतरा भी बना हुआ है। उसके लक्षण भी मौसमी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। इससे आमजन की परेशानी बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब तक जांच अभियान भी शुरू नहीं किया है।



रेसकोर्स रोड पर चार दिन से खुदा पड़ा गड़ढा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | नर्मदा प्रोजेक्ट अफसरों की मनमानी के चलते रेसकोर्स रोड पर यशवंत वल्लभ के गोड़ पर चार दिन से गड़ढा खुदा पड़ा है। इससे कमी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पानी की पाइप लाइन का लीकेज तलाशने के फेर में खोदे गए गड़ढे को अब तक बंद नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर निगम जोन 9 के जल यंत्रालय प्रभारी सुरेश रावल से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि नर्मदा पानी की पाइप लाइन में लीकेज हो गया है। इस कारण सड़क पर पानी बहता रहता है। पाइप लाइन के लीकेज को तलाशने के लिए रेसकोर्स रोड पर कई जगह गड़ढे खोदकर लीकेज तलाशा जा रहा है, लेकिन अब तक लीकेज नहीं मिला है। इसी वजह से यह गड़ढा खोदा गया। इसे जल्द ही भर दिया जाएगा।

बाधाएं हटाने की प्रक्रिया शुरू

45 साल बाद 22 किमी लंबे आरई-2 का निकला मुहूर्त

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा के हस्तक्षेप के बाद एमआर-10 स्कीम नं. 134 से लेकर राऊ रेलवे क्रॉसिंग तक प्रस्तावित 22 किमी लंबी आरई-2 की बाधाएं हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये 1975 में बने इंदौर के पहले मास्टर प्लॉन में प्रस्तावित थी जिसके बनने का मुहूर्त अब जाकर निकला है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने बैठक लेकर इस सड़क में बाधक दो बस्तियों शिवनगर व शिवदर्शन नगर के 187 परिवारों को हटाने के निर्देश दिए थे। इन परिवारों को ग्राम सनावदिया में शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां के 12 लाख रुपए के प्लैट लोगों को 2 लाख रुपए में दिए जाएंगे। सड़क को आरईए और नगर निगम मिलकर बना रहे हैं। सड़क का निर्माण पहले कम बाधाओं वाले स्थानों पर किया जाएगा। इस सड़क के बनने से इस मार्ग की करीब 75 कॉलोनियों के रहवासियों को आसानी होगी। दो साल पहले भी इस सड़क को बनाने की ओर आरईए का ध्यान गया था और योजना बनी थी जिस पर 34 करोड़ रुपए का बजट बना था। अब नायता मुंडला और आरईएबीटी के बीच इस सड़क के कुछ हिस्से का निर्माण शुरू किया गया है।

प्रस्तावित आरई-2 सड़क आरईए की नई टीपीएस 10 स्कीम में ली गई है, जहां की करीब 70 प्रतिशत सड़क शासकीय है। 7 हेक्टेयर सड़क का कुल 30 प्रतिशत हिस्सा ही निजी है। जो निर्माण वैध है, उनके बदले आरईए नए लैंड पुलिंग एक्ट के तहत प्लॉट उपलब्ध कराएगा। मास्टर प्लॉन में ये सड़क 45 मीटर चौड़ी है, जबकि अभी 24 मीटर चौड़ीकरण का कार्य हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि बस्तियां हटाने के बाद सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी।



(फाइल फोटो)

3.7 किमी का हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण

इस सड़क का ग्राम पिपलिया-बिचौली कांकड़ का 3.7 किमी का हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है। ये हिस्सा आरईएबीटी को आरटीओ से जोड़ेगा। हाईकोर्ट भी इन निर्माणों को तोड़ने का आदेश दे चुका है। कुछ दिनों पूर्व आरईए अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने यहां का दौरा कर बाधाएं देखी थी।

दो माह पूर्व शुरू हुआ सर्वे

आरईए ने दो माह पूर्व इस सड़क का सर्वे शुरू करवाया है। इसमें रोड का अलाइनमेंट, अतिक्रमण, दोनों ओर मौजूद संपत्तियां आदि बातों की जानकारियां जुटाई गई हैं। नगर निगम इस मार्ग का बैटरमेंट चार्ज भी लेगा।

मास्टर प्लॉन के मुताबिक बनेगी सड़क

जो मास्टर प्लॉन में थी, वैसी सड़क बनेगी। हम लोग सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। शासकीय भवन भी बाधक होंगे तो उन्हें हटाने की योजना बनाएंगे। **जयपालसिंह चावड़ा**, अध्यक्ष आरईए

रहवासियों ने पार्षद के नेतृत्व में पूर्व विधायक का किया घेराव सड़क की चौड़ाई 104 से घटाकर 80 फीट की जाए



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

वृंदावन कॉलोनी स्थित खड़े गणपति मंदिर से स्कीम नंबर 155, नंदबाग होते हुए टिगरिया बादशाह तक बनने वाली 104 फीट चौड़ी सड़क के विरोध में कल रहवासियों ने पार्षद राधा डाबी और सोनाली धारकर के नेतृत्व में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का घेराव किया। उनकी मांग थी कि सड़क की चौड़ाई 104 फीट से घटाकर 80 फीट की जाए ताकि उनके मकान-दुकान बच जाए। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। सड़क 104 फीट चौड़ी बनी तो वे बेघर-बार हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सड़क का निर्माण 340 करोड़ की लागत से

नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। जिसके लिए आरईए ने राशि दे दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने राजवाड़ा पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया था, ये सड़क भी उनमें से एक है। निगम का वाहन इस मार्ग के रहवासियों से लगातार अपील कर रहा है कि वे अतिक्रमण हटा लें अन्यथा निगम हटाएगा। ये सड़क बनी तो नंदबाग, टिगरिया बादशाह होते हुए सीधे सुपर कॉरिडोर से जुड़ेगी जिसका लाभ देवालयपुर, सांवेर, क्षेत्र क्रमांक 2 के लोगों को भी मिलेगा। पूर्व विधायक गुप्ता ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव व निगमायुक्त प्रतिभा पाल से चर्चा करेंगे।

कंट्रोल दुकानदारों का कमीशन बढ़ाएं

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने कहा कि राशन दुकान संचालकों का कई सालों से कमीशन फिक्स है, उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसी बड़े शहरों में दुकान संचालित करने में उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। वह सेल्समैन रखते हैं वहीं दुकानों का किराया भी बहुत देना पड़ता है, इसीलिए शासन इसमें बदलाव कर रहा है, जिससे राशन की दुकान चलाना संचालकों के लिए लाभ का सौदा हो सके।



बेड़ेकर ने बताया कि राशन दुकानों से गरीबों के राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई भी की है।

महू पीड़ितों को दिए 5-5 लाख, आदिवासी वोटों का संघर्ष

शिवराज की शह पर कमलनाथ की मात

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह की पीड़ितों की आर्थिक मदद की शह पर कल पीड़ितों के गांव पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा कर मात देने की कोशिश की है। यही नहीं, कांग्रेस इस मामले को प्रदेश स्तर पर भुनाने की भी तैयारी कर रही है।

मग्न में आदिवासी वोट भी एकजुट होते हैं और वे जिससे नाराज होते हैं उसकी तरफ देखते तक नहीं। फिलहाल, करीब ढाई करोड़ आदिवासियों ने पिछली बार भाजपा को इसलिए वोट नहीं दिए, क्योंकि वो मानते थे कि सरकार उनकी जमीनें छीन रही है। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आदिवासियों को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। बिरसा मुंडा जयंती के बाद टंट्या मामा जयंती पर बड़े आयोजन हुए और पैसा एकटू लागू किया, जो आदिवासियों के जमीनें के अधिकार से संबंधित है। इसका जमकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है और इसे सरकार अपनी उपलब्धि भी बता रही है, लेकिन दो दिन पूर्व महू के डोंगरगांव में आदिवासी युवक-युवती की मौत ने सरकार या यूं कहें कि मुख्यमंत्री की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया।

आदिवासी मतदाता बड़ा वोट बैंक



मामले में डेमेज कंट्रोल के लिए ताबड़तोड़ पीड़ितों को सहायता दी गई, लेकिन कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पीड़ितों के गांव पहुंचने के बाद माहौल बदला सा लगा। नाथ पहले ग्राम छारेल पहुंचे, जहां के आदिवासी युवक भेरुसिंह पिता मदनसिंह की डोंगरगांव पुलिस चौकी की पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना में मौत हो गई। इसके बाद वो महेश्वर क्षेत्र के ग्राम वासली कुंडिया पहुंचे, जहां की युवती की महू के गवली पलासिया स्थित युवक के घर मौत हो गई थी। दोनों ही स्थानों पर नाथ ने

आदिवासियों को अपना भाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस सदा उनके साथ रही है। गोलीचालन की घटना से मैं काफी व्यथित हूँ। शिवराज सरकार ने पीड़ितों पर ही मुकदमे लाद दिए हैं, ये निरंकुशता का चरम है। यही नहीं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देगी। शिवराज और कमलनाथ दोनों जानते हैं कि प्रदेश में सत्ता के रास्ते में आदिवासी मतदाताओं का बड़ा रोल है, इसलिए उन्हें रिझाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो अपने आपमें बड़ा वोट बैंक है।

कांग्रेस समर्थक रहे हैं आदिवासी

ये माना जाता है कि आदिवासी कांग्रेस समर्थक रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव से पहले के करीब दो चुनाव से आदिवासी मतदाताओं का मन भाजपा के प्रति बदला था। इसके पीछे आरएसएस स्वयंसेवकों की अथक मेहनत थी। उन्होंने हनुमान चालीसा व अन्य आयोजन कर आदिवासी मतदाताओं का मन बदला था, लेकिन पिछले चुनाव में आरएसएस स्वयंसेवकों ने भी नाराजगी दिखाई थी और वे आदिवासियों के बीच नहीं गए। नतीजा ये कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी।

सीएम हेलपलाइन की रोज 250 शिकायतों का निराकरण करें : कलेक्टर

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने कल अधिकारियों की बैठक में सीएम हेलपलाइन संबंधी शिकायतों का तय समय में निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्ययोजना बनाएं, जिससे प्रतिदिन 250 शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में पोर्टल पर लिखने वाली शिकायतों की समीक्षा की गई। इसमें राजस्व की 461, ऊर्जा की 555, खाद्य की 78, परिवहन की 836 शिकायतें लंबित दिखीं। इन शिकायतों के ए श्रेणी के होने से इसका शीघ्र निराकरण करने को कहा। इसके अलावा शिक्षा की 379, आदिम जाति कल्याण की 740, लोनिवि की 102, वन की 61, अजा विभाग की 90 शिकायतें डी श्रेणी की मिलीं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की 3307 शिकायतें बी श्रेणी की मिलीं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन 250 शिकायतों का निराकरण करें। पोर्टल पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 30, महिला एवं बाल विकास की 84, सामाजिक कल्याण की 145 शिकायतें बी श्रेणी, श्रम विभाग की 421 शिकायतें सी श्रेणी की मिलीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की 627 शिकायतें सी कैटेगरी होने पर कलेक्टर ने कहा कि इस विभाग को टॉप 03 पर रखा जाए। लोनिवि की 102 शिकायतें डी श्रेणी में होने पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि 50 दिन में शिकायतों का निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। टॉप 10 मेजर डिपार्टमेंट में नगरीय एवं आवासीय विभाग की 3307, गृह विभाग की 3260, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग की 948, परिवहन विभाग की 841, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 890, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जननी सुरक्षा योजना की 81 शिकायतें लंबित मिलीं। सभी शिकायतों का तुरंत निराकरण करने को कहा।

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

हर पात्र बहना का योजना का लाभ मिले

बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने अधिकारियों से कहा कि हर पात्र हितग्राही को मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना का लाभ मिले। जिला पंचायत सीईओ वंदना शर्मा को मॉनिटरिंग करने तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अपात्र महिलाओं के प्रकरण प्राप्त होने पर मौका स्थल पर जाकर प्रकरण का निराकरण करने को भी कहा।

पटवारी के खुद को कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बताने से कमलनाथ नाराज

जीतू पटवारी का साथ नहीं दे रही कांग्रेस

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | विधानसभा के पूरे सत्र के लिए निर्लंबित पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व राऊ विधायक जीतू पटवारी का साथ कांग्रेस नहीं दे रही। इसके पीछे जो कारण सामने आया है वो पटवारी द्वारा खुद को कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बताना है। इससे कमलनाथ नाराज हैं।

उल्लेखनीय है कि जीतू पटवारी द्वारा किसानों का मुद्दा उठाने पर विधानसभा में मंचे हंगामे के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निर्लंबित कर दिया

था। जब निर्लंबन हुआ तब तो कांग्रेस उनके साथ थी और इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही पटवारी का एक पत्र वायरल हुआ कांग्रेस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस पत्र में पटवारी ने खुद को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए 13 मार्च को भोपाल में हुए राजभवन के घेराव को उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में बताया था और इस आशय का पत्र अलग से जारी किया था। जीतू पटवारी के समर्थन में विधानसभा

अध्यक्ष और बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता फ्रंट फुट पर आ गए थे। जीतू भी जोश में थे, लेकिन उनके द्वारा जारी किए गए लेटर ने बाजी पलट दी। सदन में पटवारी के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। चार दिन बाद तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस बैकफुट पर क्यों आ गई? जीतू ने जो पत्र लिखा था उस पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

जीतू ने शिवराज की तारीफ की : अब तो पटवारी ने शिवराज की तारीफ भी कर दी है। बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें पटवारी कह रहे हैं- श्रम से परिणाम का ताल्लुक है, शिवराजजी बहुत मेहनत करते हैं, दिन-रात लगे रहते हैं, रोज दो जिलों में जाते हैं। ऐसा बयान देकर जीतू क्या कोई संकेत दे रहे हैं? बताते हैं कि जीतू कमलनाथ को चेतावनी स्वरूप शिवराज की तारीफ कर रहे हैं।

सांसद ने दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लिया

इंदौर में बन रही टनल के काम शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

खंडवा रोड सिमरोल में होने वाले हादसों एवं ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए सिमरोल के पास टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल के बनने से इंदौर की दूरी दस किलोमीटर कम होगी। सांसद ने टनल पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मिली जानकारी के अनुसार सांसद शंकर लालवानी ने सिमरोल के पास टनल के काम का जायजा लेने पहुंचे और सुरंग के अंदर

जाकर टेक्नोलॉजी को समझा, एनएचएआई की कार्यवाही के बारे में जाना और सुरंग के काम को तेजी से कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा की। सांसद ने प्रोजेक्ट में आ रही दिक्कतों के बारे में भी एनएचएआई के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि इस टनल के बनने के बाद इंदौर और खंडवा के बीच की दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी।

सांसद ने कहा कि इंदौर-खंडवा रोड का काम तेजी से चल रहा है। इस सुरंग के बनने के बाद खंडवा और इंदौर की दूरी कम होगी लोगों को यातायात में सुविधा होगी।



हादसों एवं सड़क जाम से भी मुक्ति मिलेगी। सांसद के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए योजना बनाना एक बड़ी चुनौती थी। घाट सेक्शन में कम से कम पेड़ काटना पड़े ऐसी योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा था और इस टनल के बनने से करीब 12 हजार पेड़ कटने से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनएचएआई द्वारा बनाई जा रही सुरंग आधुनिक इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण है, जहां पर्यावरण एवं इकोसिस्टम को बचाकर विकास की योजना बनाई गई है। इस सुरंग से घाट सेक्शन में यात्रा करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

प्रधानमंत्री के जल मिशन का काम ठप... आदिवासियों में गुस्सा

शिव 'राज' पर भारी अफसर राज

सरकार पर हावी एक उपयंत्री और कार्यपालन यंत्री

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

अफसरों की मनमानी पर भाजपा सरकार का नियंत्रण नहीं है। आला अफसरों को छोड़िए, एक छोटा सा कर्मचारी बरिष्ठ अफसर के संरक्षण में मनमर्जी से पूरे सिस्टम को हलाकन किए हैं। बड़वानी के राजघाट से लेकर भोपाल के वल्लभ भवन तक किस्सा-ए-उपयंत्री और उपयंत्री पर मेहरबान ईई का किस्सा परवान चढ़ रहा है।

मामला बड़वानी के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) कार्यालय का है। यहां सात माह से सहायक यंत्री पद पर किसी की पदस्थापना नहीं होने दी जा रही न जल मिशन और अन्य जनसुविधा कार्य में बाधक कार्यपालन यंत्री (ईई) को हटाया जा रहा है। मामले की गंभीरता और नजाकत समझते हुए सरकार सहायक यंत्री पद पर अस्थायी रूप से बैठे उपयंत्री को हटाने का आदेश देती है। प्रभार ईई को लेने का आदेश जारी होता है लेकिन एक माह बाद भी आदेश पर अमल नहीं होने दिया जाता क्योंकि उपयंत्री ईई की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं। कार्यपालन यंत्री भी अपने उपयंत्री को ईई के प्रभार से मुक्त नहीं होने दे रहे। वे आदेश को महत्व नहीं देते हुए ईई का प्रभार लेने से इंकार कर चुके हैं। एक तरह से दोनों सरकार को चुनौती दिए हुए हैं।

कहा जा रहा है तबादला तो दोनों का होना था। शिकायतें भी हुईं पर अभी तक जितनी तबादला सूची आई, इन दोनों को नहीं छू पाई। विभागीय चर्चा बताती है एक उपयंत्री को करीब 7 माह पहले कार्यपालन यंत्री (ईई) ने जोड़ गणित से रिक्त सहायक यंत्री के पद का अस्थायी प्रभार दिलवा दिया था। इसके बाद किसी और की पदस्थापना नहीं होने दी गई। इससे विभागीय काम ठप हैं। प्रधानमंत्री जल मिशन योजना आदिवासी इलाकों में दम तोड़ रही है। हालात बदतर होने पर

बीते माह सहायक यंत्री (ईई) के पद पर 7 माह से जबरिया काबिज कनिष्ठ उपयंत्री को ईई के प्रभार से मुक्त करने का आदेश बड़ी मशक्कत के बाद जारी हुआ लेकिन उसकी तौहीन कर दोनों अफसर ने वही किया जो उन्होंने चाहा। मनमानी की इस कहानी में दोनों यंत्री सरकार को अंधेरे में रख नए-नए दांव-पेंच आजमा रहे हैं।



इनकी कार्यशैली से परेशान लोग बताते हैं कि अस्थायी सहायक यंत्री बनाए गए उपयंत्री और ईई साहब के कारण जिले में प्रधानमंत्री जल मिशन का काम ठप है। अब विधानसभा चुनाव के साथ भीषण गर्मी सामने है। ऐसी दशा में पानी के लिए त्राहिमाम होना है दूसरी ओर जल मिशन का काम लंबे समय से ठप पड़ा है। विभाग का काम दोनों करने को तैयार नहीं। चर्चा है दोनों साहब की जुगलबंदी की मनमानी पूरे तंत्र पर हावी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जल मिशन का रैगिस्तानीकरण करने में लगे अफसरों की शिकवा-शिकायतें हुईं।

हल्ला होने पर प्रमुख अभियंता भोपाल ने मुख्य अभियंता से सहायक यंत्री पद पर अस्थायी काबिज उपयंत्री को तत्काल हटाकर प्रभार ईई को लेने के आदेश जारी कराया। इस आदेश को भी करीब एक माह हो गया। न उपयंत्री ने सहायक यंत्री का पद छोड़ा न ईई ने प्रभार लिया। सरकारी आदेश का मखौल उड़या जा रहा है। अफसरों की मनमर्जी के ऐसे कई मामले शिवराज सरकार के लिए उपहास का विषय बने हुए हैं। यही नहीं साहब लोग घर से दो-दो माह तक दफ्तर भी चलाते रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान इस समय हर आदिवासी को पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने दिन-रात एक कर रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर है। दूसरी ओर पीएचई विभाग का यह उदाहरण बताता है अफसरों की मनमानी प्रयास को सफल नहीं होने देती। आदिवासी बहुल इस अंचल में प्रधानमंत्री के महत्वकांक्षी जल मिशन को बेपानी बनाने की तंत्र की मनमानी का यह उदाहरण सरकार की तंत्र पर पकड़ नहीं होने की हकीकत बयां कर रहा है। इन अफसरों की कार्यप्रणाली से प्रशासन भी त्रस्त है। तत्कालीन कलेक्टर ने भी इन यंत्रियों की नकेल कसने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए।

मुख्य अभियंता पीएचई इंदौर सर्कल विजय सिंह सोलंकी का कहना है कि आदेश हुए थे, उपयंत्री को हटाना है, अभी प्रभार मुक्त नहीं हुए।

सवाल - एक माह तक प्रभार मुक्त नहीं होने की क्या वजह।
जवाब - हो जाएंगे, वहीं के वहीं प्रभार देना है।
सवाल - ईई भी शासन के आदेश की खुली अवहेलना कर रहे हैं, प्रभार नहीं लेकर।
जवाब- कारवाई हो जाएगी।

इस सवाल पर कि इतने दिनों के बाद भी दोनों अधिकारी शासन के आदेश का मखौल बनाए हुए हैं। आपने अब तक कोई कारवाई क्यों नहीं की। इस पर सोलंकी भड़क गए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। आखिर में उन्होंने कहा कई कारण रहते हैं, इसलिए दोनों के मामले में कारवाई नहीं हुई। तबादला सूची आती रहती है, हट जाएंगे। उन्होंने स्वीकारा कि जल मिशन का काम ठप है और दोनों अधिकारियों की शिकायतें और इन्हें हटाने की जानकारी प्रमुख सचिव तक नहीं दी गई है।

बूथ विस्तारक अभियान में सूची का सत्यापन



खुलासा फर्स्ट... इंदौर | भाजपा द्वारा बूथ विस्तारक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पार्षद भावना सुंदरलाल चौधरी एवं विस्तारक योगेश भदौरिया के साथ बूथ की सूची का सत्यापन किया। शक्ति केंद्र आईटी प्रभारी रिजवान भारती, हितग्राही प्रभारी विशाल यादव, वार्ड सहसंयोजक शक्ति केंद्र संयोजक राधेश्याम एवं वार्ड-61 के सुंदरलाल चौधरी ने मुख्य रूप से सत्यापन किया। रिजवान भारती ने पार्टी के संगठन व विकास पर प्रकाश डाला।

धार जिले में बनेगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्यप्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल योजना मंजूर करने के लिए बधाई दी। यह योजना मध्यप्रदेश सहित 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए मंजूर की गई है। प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। ये बात मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 5-एफ के विजन फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन तक यह परियोजना प्रेरित है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग बहनों और बेटियों को रोजगार देने में सहयोगी है। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों की धरोहर वाले मध्यप्रदेश के वस्त्र पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क से नवीन विस्तार और लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बहनों के साथ ही किसानों और युवाओं को भी लाभ मिलेगा। यह पार्क मध्यप्रदेश को वस्त्र उद्योग में वैश्विक पहचान देने का कार्य करेगा। रोजगार की नई राह खुलेगी। कपड़ा क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक इन्सॉल्वेंट योजना में प्रदेश को करीब साढ़े तीन हजार करोड़ के निवेश का अवसर मिला है। यह योजना मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण से तैयार की गई है।

जिले के 10 ग्रामों को मिली 28 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सरकार की योजनाएं

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट कल ग्राम पिवड़ाय पहुंचे तो वहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मंत्री सिलावट ने गांव की सरहद पर गाड़ी छोड़कर गांव का पैदल भ्रमण किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि पिवड़ाय मंत्री सिलावट का पैतृक गांव है। वे विकास यात्रा लेकर गांव पहुंचे थे। उन्होंने गांव में विविध कार्यों के लिए भूमिपूजन और शिलान्यास किया।

सिलावट ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। शासन

की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लाड़ली बहना योजना उनमें से एक साबित होगी। सिलावट ने ग्राम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ भी दिया। उन्होंने गांव में नल-जल योजना में आ रही दिक्कत शीघ्र दूर करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए। उन्होंने तहसीलदार ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि वे इस मामले में जांच भी करें। अगर कोई गड़बड़ी है तो लापरवाहों को बख्शा भी नहीं जाएगा। मंत्री सिलावट ने सांसद शंकर लालवानी और डॉ. राजेश सोनकर के साथ ग्राम कम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया।



सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास

सांसद शंकर लालवानी ने अपने संबोधन में मंत्री तुलसीराम सिलावट की सरलता, सहजता और विनम्रता के लिए उन्हें अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में नित नए विकास कार्य हो रहे हैं और क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। सिलावट ने इंदौर जिले के 10 ग्रामों को 28 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने ग्राम पंचायत पिवड़ाय में बनने वाले आंगनवाड़ी भवन, बाजार चौक लागत 7.10 लाख, आंगनवाड़ी भवन नई आबादी लागत 7.10 लाख, शमशान में पैर ब्लॉक निर्माण कार्य लागत 5 लाख, ड्रेनेज लाइन निर्माण कार्य लागत 4 लाख तथा पिवड़ाय खुदेल मार्ग मजबूतीकरण कार्य लागत 360 लाख रुपए का भूमिपूजन आदि कार्य किए।

आज खजराना गणेश के शृंगार दर्शन



खजराना में भगवान गणेश का आज सुबह अभिषेक, पूजन कर आकर्षक शृंगार किया गया। भगवान को फूलों से सजाकर भोग लगाया गया।

आज बगलामुखी माता के शृंगार दर्शन



नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता का आज सुबह पूजन कर आकर्षक शृंगार किया गया। आरती कर मां को प्रसाद का भोग लगाया गया।

आज महाकाल के भस्मारती शृंगार दर्शन



भस्मारती के दौरान आज सुबह भगवान महाकाल का भांग, सूखे मेवों और फूलों से आकर्षक शृंगार कर भोग अर्पित किया गया।



प्रभातफेरी में पौधे रोपकर दिया

पर्यावरण बचाने का संदेश

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

फूलों और गुब्बारों से सजी पालकी में दर्शन देने निकले साईं बाबा

श्री इंदौर शहर साईं भक्त सेवा समिति द्वारा आयोजित 22 दिवसीय साईं बाबा महोत्सव के तहत निकाली जा रही बाबा की पालकी व प्रभातफेरी कल सुदामा नगर क्षेत्र से निकाली गई। प्रभातफेरी आयोजक कमल पाठक और अमित पाठक ने बताया कि प्रभातफेरी में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। जगह-जगह रंगोली व दीप रोशन कर रहवासियों ने बाबा की पालकी की अगवानी की। वहीं अपने घरों की छतों पर दीप रोशन करने के साथ ही विद्युत सजा भी की। प्रभातफेरी में पर्यावरण का संदेश देते हुए सुदामा नगर उद्यान में औषधीय पौधे भी समिति पदाधिकारियों और साईं भक्तों ने रोपे। सुदामा नगर क्षेत्र से निकली प्रभातफेरी में भक्तों का हुजूम नजर आया। जिस स्थान व जिस क्षेत्र से प्रभातफेरी व बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई वहां उपस्थित सभी रहवासी प्रभातफेरी में जुड़ते गए। कल निकली प्रभातफेरी में प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, संतोष पाठक, क्षेत्रीय पार्षद शानु शर्मा, छोटू शुक्ला, मांगीलाल रेडवाल, प्रकाश तोमर, राजेंद्र गर्ग, गोविंद वर्मा, शरद स्नेही, सतीश बंसल, राकेश निहाले, राहुल गुप्ता, अनिल परिहार, अरविंद बगथरिया, बद्रीलाल परमार, अनिल संगोले सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।

खुलासा फर्स्ट...इंदौर। 22 दिवसीय साईं प्रभातफेरी कल चौथी पल्टन जैन कॉलोनी स्थित शांति नगर से निकाली गई। जहां अलसुबह भक्तों ने बाबा की आरती की। वहीं आरती के बाद साईं बाबा के परम भक्त स्व. गणेशप्रसाद तिवारी को भी साईं भक्तों ने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। प्रभातफेरी आयोजक चिराग तिवारी ने बताया कि बाबा की पालकी व प्रभातफेरी चौथी पल्टन, जैन कॉलोनी व शांति नगर कॉलोनी सहित अन्य मोहल्लों व कॉलोनीयों में निकली, जहां महिलाओं ने पालकी का पूजन कर देश में सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। प्रभातफेरी में कृपाशंकर शुक्ला, गौतम पाठक, हरि अग्रवाल, विनीत



पाठक, आलोक खादीवाला, रवि वर्मा, विजय देवड़ा, समीर जोशी, प्रदीप यादव, किशोर दोरकर, जगमोहन वर्मा, महेश गिरी, समीर जोशी, पिंटू यादव, भूरु यादव, रोहित यादव, रौनक यादव, रंजीत यादव, अंकित यादव, अभिषेक जोशी, विनय यादव, मोहन पहलवान, विजय ठाकुर सहित बड़ी संख्या में साईं भक्त मौजूद थे।

प्रभातफेरी में घर-घर से किया बाबा का पूजन

खुलासा फर्स्ट...इंदौर। श्री देवी अहिल्या साईं सोशल भक्त समिति द्वारा 27 दिवसीय साईं बाबा महोत्सव के तहत कल बाबा की पालकी व प्रभातफेरी नौलखा स्थित प्रकाश नगर से निकाली गई, जो शिवकृपा कॉलोनी, साजन नगर होते हुए पुनः शिव मंदिर पर समाप्त हुई। प्रभातफेरी आयोजक इंदर ठाकुर ने बताया कि बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल हुईं। प्रभातफेरी के माध्यम से रामनवमी पर निकलने वाली पालकी यात्रा का निमंत्रण भी रहवासियों को दिया गया। प्रकाश नगर से निकली प्रभातफेरी में



प्रदीप कौशल, सुशील श्रीवास्तव, आशीतोष राव, संजय यादव, नंदा ठाकुर, सुनीता पाटीदार, राकेश चावला, भोलासिंह ठाकुर, भूपेंद्र चपड़ा, रजनीकांत जोशी, मनीष जिंदल व बड़ी संख्या में भक्त शामिल थे।

मदनी बाबा के उर्स में पेश की चादर

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मदनी बाबा के 102वें उर्स में बड़ी संख्या में मुरीद अकीदतमंद शिरकत करने बुरहानपुर पहुंचे। उर्स मुबारक में खजराना इंदौर से जायरीन साजिद मदनी ने हजरत मदनी बाबा के आस्ताने आलिया पर चादर और गुलाब के फूल पेश कर देश में अमन, भलाई और तरक्की व भाईचारे की दुआ मांगी। इस मौके पर हाफिज मुस्तकीम शाह, मुतवल्ली युनुस शाह मदनी, हारून मदनी, महबूब मदनी, शाहिद भाई, वाजिद भाई, साजिद मदनी, इरफान खान, आरिफ शेख, आरिफ खान आदि ने मदनी बाबा को नजराना-ए-अकीदत पेश किया। तबर्क भी तकसीम किया गया।



खजराना गणेश को दिया श्री राम रथयात्रा का प्रथम निमंत्रण

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। रामनवमी पर पंचकुइयां स्थित श्री राम मंदिर आश्रम से निकलने वाली श्री राम रथयात्रा का प्रथम निमंत्रण आयोजक पंचकुइयां पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज ने साधु-संतों की उपस्थिति में खजराना गणेश को दिया। राम रथयात्रा 30 मार्च को शाम 4 बजे निकलेगी, जिसमें आकर्षक झांकियों के साथ रथ पर सवार होकर भगवान रामलला भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। यात्रा में मथुरा-वृंदावन के साधु-संत भी सम्मिलित होंगे। खजराना गणेश को आचार्य-पंडितों की उपस्थिति में वेद मंत्रोच्चार के बीच श्री राम रथयात्रा का प्रथम निमंत्रण उनके चरणों में अर्पित कर यात्रा को सफल बनाने की कामना की। श्री जानकी वल्लभदास महाराज, श्री भरतदास महाराज, धीरज शुक्ला, सनी शर्मा, प्रमोद जोशी, रवि शर्मा, मनोज शर्मा, सत्यप्रकाश पाठक, खेमचंद चौरसिया, रवि वर्मा सहित अन्य भक्तगण मौजूद थे।



संपादकीय



**सीएए विरोध और
पाकिस्तान की बहाली**

क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भारत के मुसलमानों के विरोध और पाकिस्तान की बहाली में कोई अंतर्संबंध है? क्या इस एक्ट का विरोध करने वालों को पाकिस्तान के दिवालिया होने का अंदेश था? ये सवाल आज प्रासंगिक हो गए हैं। सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रताड़ितों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है उग्र विरोध के चलते सशक्त मोदी सरकार ने आज तक इसके उन नियम और प्रक्रिया विधि नहीं बनाई, जिससे एक्ट का क्रियान्वयन नहीं हो सका है। भारत के मुसलमानों ने विरोध इस आधार पर किया था एक्ट धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। यह केवल मुसलमानों को नागरिकता लेने से रोकता है। उल्लेखनीय है विरोध तीनों देशों के मुसलमानों के अधिकारों के लिए हुआ था। भारत के मुसलमानों ने मांग की थी उक्त तीनों देशों के मुसलमानों को भी उनके चाहने पर नागरिकता दी जाए। यदि मोदी सरकार उस विरोध के आगे झुक कर एक्ट में संशोधन कर देती तो आज पूरे पाकिस्तान के नागरिक भारत की नागरिकता का दावा ठोक चुके होते। इस आशय की कई खबरें आ चुकी हैं कि लगभग भूखों मरने की कगार पर खड़े पाकिस्तानियों का बस चले तो वे भागने में एक क्षण की देर न करें। जिस देश में डाई सौ रुपए किलो प्याज मिल रहा हो, वहां कौन रुकना चाहेगा? सवाल है क्या भारत में सीएए के विरोधियों को पाकिस्तान की इस हालत का अंदाजा था? पाकिस्तान की हालत अचानक खराब नहीं हुई है। एफएटीएफ की ग्रे सूची में रहने के कारण वह काफी पहले से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। जिस समय भारत में सीएए के विरोध में आंदोलन चल रहा था तब भी पाकिस्तान की हालत कोई अच्छी नहीं थी। इधर भारत में मांग हो रही थी कि उक्त तीनों देशों के मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया जाए। जरा सोचिए यह मांग क्यों की जा रही थी? एक्ट धार्मिक प्रताड़ना की बात करता है। वह कहता है धार्मिक आधार पर उक्त देशों के हिंदू व अन्य समुदाय प्रताड़ित हों तो भारत उन्हें नागरिकता देगा। इसके विरोधियों की मांग थी प्रताड़ना के संदर्भ से धार्मिक शब्द हटाया जाए। यानी ऐसे देशों के सभी नागरिकों को प्रताड़ित होने पर नागरिकता देने का प्रावधान किया जाए। इस मांग को मान लिया जाता तो आज पाकिस्तान के मुसलमान भी स्वयं को महंगाई से पीड़ित बताकर नागरिकता मांग रहे होते और यहां उन्हें समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं होती। सेकुलर तो दबे शब्दों में पाकिस्तान की मदद की मांग उठा ही चुके हैं। यदि एक्ट में प्रावधान होता तो खुले आम उन्हें नागरिकता देने की मांग उठाई जा रही होती। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा इस आधार पर खटखटाया जा चुका है कि भारत तो मानवता का चैंपियन है, आदर्श है, उसे उन्हें नागरिकता देना ही चाहिए। आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट ने इसका निपटारा करते हुए सरकार को मांग पर विचार का निर्देश दिया था।

-प्रदीप शर्मा

सांच कहे ता ! दिग्विजय के 'दलित एजेन्डे' ने विन्ध्य-चंबल में कांग्रेस को पहुँचाया था रसातल में!



जयराम शुक्ल
(वरिष्ठ पत्रकार)

मध्यप्रदेश की सत्ता के संकेतक बन चुके विन्ध्यक्षेत्र में किसी भी दल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मैदान में प्रत्याशी कौन है। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा का फोकस इसी पर है। पट्टेबाजी से हटकर कांग्रेस नई जमावट के लिए कसरत कर रही है, तो भाजपा के सामने रिटायर्ड हो रहे विधायकों की विकल्प ढूँढने की कश्मकश है। 10-11 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा-सतना के दौरे पर थे। उन्होंने मंडलम की बैठकों और जनसभा में जोर देकर यह बात कही कि इस बार ठोक बजाकर जीतने का सामर्थ्य रखने वाले प्रत्याशियों को ही उतारा जाएगा। सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी कांग्रेस कैसे ठोस बजाकर तय कर पाएगी कि यह चना घुना नहीं है। कांग्रेस में तो 'थोथे चने ही ज्यादा घने' बजते आ रहे हैं। विन्ध्य के संदर्भ में देखें तो यह कांग्रेस के लिए 2003 में ही 'वाटरलू' बना हुआ है और इसका श्रेय भी दिग्विजय सिंह को उसी तरह जाता है जैसा कि यूपी में सीताराम केसरी को कांग्रेस को डुबाने का। केसरी ने बीएसपी से समझौता करके वहाँ कांग्रेस को दूसरे नंबर की पार्टी बन दी और तभी से कांग्रेस रसातल की ओर चलती चली गई। 2003 में ठीक यही फलफलान दिग्विजय सिंह ने विन्ध्य और चंबल में लागू किया। यद्यपि बसपा से यह समझौता खुलेआम नहीं दबे पाँव था, लेकिन यह सब 2002 के दलितों के 'भोपाल डिक्लेरेशन' के चलते हुआ। दलित एजेंडा तैयार करने वाली टीम में डा. अमर सिंह (मुख्यमंत्री के तत्कालीन सचिव) बैरवा साहब और लखनऊ से आयातित थिंक टैंक चन्द्रभानु प्रसाद थे।

रीवा-सतना-सीधी की सीटों में मैहर, रामपुर बघेलान, गुढ़, देवतलाब, मऊगंज, सिहावल से ऐसे ही उम्मीदवार उतारे गए। कमाल यह कि इनमें चार सीटें ऐसी महिलाओं को दी गईं जो तब की कांग्रेस की राजनीति में गुमनाम ही रहीं। यही नहीं दिग्विजय सिंह की ओर से प्रचारित किया गया कि ये टिकटें कहा गया कि ये श्रीनिवास तिवारी की सिफारिश पर दी गईं तो हैं। दरअसल योजना श्रीनिवास तिवारी को निपटाने की भी थी और वे अच्छे से निपट भी गए। इन सीटों से सभी उम्मीदवार न सिर्फ धराशायी हुए अपितु तीसरे चौथे नंबर पर आकर जमानतें भी जब्त करा दीं। इनमें से तीन सीटों पर बसपा के उम्मीदवार जीते भी लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके रणनीतिकारों को यह नहीं मालुम था कि यह चुनाव एक और बीएसपी (बिजली-पानी-सड़क) लड़ रही है। इस चुनाव ने ही विन्ध्य में भाजपा को पाँव जमाने का अवसर दिया जो अबतक चुनावी मैदान में 'अंगद' की तरह जमा है। पिछली मर्तबा बसपा छोड़कर आए पूर्व विधायकों पर एक मुश्त दौंव लगा दिया था इसलिए कांग्रेस यहाँ मुँह के बल गिरी। इसबार बसपाइयों को टिकट दिलाने के पैरोकार के तौर पर अजय सिंह राहुल को प्रचारित किया गया। कांग्रेस तो निपटी ही श्रीनिवास तिवारी की भाँति अर्जुन सिंह का भी राजनीतिक कुल निपट गया। राहुल न घर के रहे न घाट के। संभव है कि राहुल ने पैरवी की हो या साजिश में फँस गए, या उनका ही विवेक था, ये वो जाने पर वे विन्ध्य के क्षेत्र आज भी हैं? नए उम्मीदवारों की खोज इस बार गैर राजनीतिक तरीके से हो रही है। निजी एजेंसियों से त्रिस्तरीय सर्वे करवाए गए हैं। यदि कांग्रेस पट्टेबाजी से उलट अच्छे उम्मीदवार दे पाने में सफल होती है तो वह 15 से 20 सीटों तक कामयाब हो सकती है। संदर्भ के लिए बता दें कि विन्ध्य में चुनावी राजनीति का चलन जरा लीक से हटकर चलता आया है.. इतिहास बताता है कि यह क्षेत्र कभी किसी रौ में नहीं बहा..77 में जब देश से कांग्रेस खारिज हो गई तो विन्ध्य कांग्रेस के साथ खड़ा रहा और 2018 में बीजेपी जब

प्रदेश भर में खारिज हो गई तो इस क्षेत्र ने उसका मेरूद्ध बनकर सहारा दिया। प्रत्याशियों के चयन को लेकर इस बार भाजपा भी घन चक्कर में फँसने वाली है। 2003 से लगातार चुनाव जीत रहे इस क्षेत्र के दर्जन भर ज्यादा नेता रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं उनका विकल्प ढूँढना बीजेपी को टेढ़ीखीर साबित होने वाला है। इनमें से ज्यादातर अपने ही पुत्र-पुत्रियों-भतीजों को उत्तराधिकारी के तौर पर प्रस्तुत करना शुरू भी कर दिया है। सतना के नागेन्द्र सिंह नागौद चुनाव लड़ने से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ भाजपा ने जब भी किले से बाहर का प्रत्याशी दिया हारी सो उसे सोचना होगा। किले के वंशजों को आगे लेकर बढ़े या नया उम्मीदवार दे। दूसरे नागेन्द्र सिंह गुढ़ पिछली बार ही ऐलान कर चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने ठेकेदार भतीजे प्रणव प्रताप सिंह को आगे किया है। वे रीवा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। स्पीकर गिरीश गौतम पचहतर पर हैं लेकिन मैदान पर डटे रहने की मुद्रा में हैं। पुत्र को स्थापित ककरने की कोशिशों में विफल रहे। सीधी के केदारनाथ शुक्ल भाजपा सरकार बनने के बाद से ही बागी की मुद्रा में हैं। बेटे गुरुदत्त शरण को आगे कर रखा है। केदार जी हर वक्त आरपार लड़ने के तेवर में लहते हैं चाहे पार्टी के भीतर हो या बाहर। सिंगरौली से रामलल्लू वैस की सेवानिवृत्ति तय है। अपराधों के आरोपी बच्चों दूर रहने का अखबारी ऐलान भी कर चुके हैं। रामलल्लू जैसी ही स्थिति अनूपपुर के बिसाहलाल की भी है। रीवा के त्योंथर से श्यामलाल द्विवेदी और मनगवाँ के पंचूलाल को संकेत मिल चुके हैं कि दोहराए नहीं जाएंगे। जीते-हारे ऐसे ही कईएक उम्मीदवार हैं जो अब पचहतर पार की लाइन पर खड़े हैं। भाजपा यहाँ उनका विकल्प देगी या उनके उत्तराधिकारी यह तय कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। टिकट कटे हुए लोगों के लिए आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प तो है ही बसपा हाल फिलहाल अपनी लोकतांत्रिक जन्मभूमि विन्ध्य को छोड़ने वाली नहीं..।

स्मृति शेष नहीं विशेष

मधुरम की पराकाष्ठा थे दिलीप जी

सदैव प्रभावी व हँसमुख चेहरे के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता के धनी व साथ ही विनम्र स्वभाव और सभी के साथ मिलनसारिता आदि गुणों को अगर आत्मसात करना हो तो मेरे जेहन में केवल एक ही व्यक्तित्व आता है और वह है दिलीप ठाकुर या हमारे दिलीप जी यानी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब इसलिए कि इंदौर में पुलिस विभाग का हर शाख उन्हें ठाकुर साहब ही सम्बोधित करता था। वे नईदुनिया में क्राइम रिपोर्टर रहे। दिलीप जी से करीब से व गहराई से जुड़ने का सौभाग्य मुझे साल 1990 से मिला। इसी साल नईदुनिया में मुझे काम करने का अवसर मिला। इससे पूर्व इंदौर में जैन तीर्थ गोमटगिरी के आयोजन की दिलीप जी द्वारा की गई रिपोर्टिंग से भी मैं बहुत प्रभावित रहा था। दिलीप जी से मैं ही प्रभावित था ऐसा नहीं उनका हर साथी के साथ मधुरता का व्यवहार था, शासन प्रशासन में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों से भी आत्मीयता का व्यवहार रहा। साल 1990 से लेकर साल 2012 मार्च तक नईदुनिया में सहकर्मी रूप में उनसे सम्पर्क में रहा। इसके बाद परिस्थितियों के कारण मैं नईदुनिया से अलग हुआ। कुछ समय बाद दिलीप जी ने भी नईदुनिया से अपने को अलग कर लिया। उसके बाद साल 2013 से साल 2016 तक हमारा साथ इंदौर से ही अखबार जगत में नवप्रवेशी हिंदी सांध्य दैनिक « डी एन एन टाइम्स » के स्थापनाकाल से ही साथ में कार्य किया। यह



अवसर स्वयं दिलीप जी ने ही मुझे प्रदान किया। उसके बाद मैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता व फोटोग्राफी करने लगा दिलीप जी सुबह सवेरे समाचार पत्र से जुड़ गए। जनवरी 2023 में मेरे मन में एक विचार आया कि स्वच्छता में अव्वल इंदौर में ऐसा किया जाए तो यह सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम होगा। इस समय वे इंदौर नगर निगम के महापौर माननीय पुष्पमित्र भागव जी के साथ उन्हीं के मीडिया सलाहकार के रूप में थे। चूंकि मेरा विचार (सामाजिक दृष्टिकोण) शहर के प्रति था सो दिलीप जी से पहले साझा किया। उस विचार को जानकर दिलीप जी ने मुझे कहा मंडलोई जी अभी रुकी भाजपा की विकास यात्रा शहर में चल रही है भागव जी उसमें व्यस्त रहेंगे, यह हो जाए तो उनसे समय लेकर आपको

मिलवा कर अपनी बात रखते हैं। विचार अच्छा व सामाजिक सरोकार से जुड़ा है भागव जी तत्काल अमल में लाएंगे। फरवरी बीत गया मैं अपनी कार्य व्यस्तता में रहा मार्च भी जा ही रहा था। इसी बीच दिलीप जी से बात भी हुई कि गुड़ी पड़वा पर्व आ रहा है अपन एक दो दिन में भागव जी मिलकर तय कर लेते हैं। पर नियति को क्या करना होता है यह तो उसे ही मालुम। मेरी बहुत इच्छा थी दिलीप जी के माध्यम से यह विचार शहर में प्रस्तुत हो। पर यह हो ना सका। लेकिन होगा यह विश्वास है और आप सभी के सहयोग से अब तो दिलीप जी की स्मृति के रूप में तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा आप सभी का सहयोग व सहमति भी होगी और यह विचार अमल में आएगा। दिलीप जी का स्नेह मुझ पर था यह मैं अपनी अंतिम श्वास तक याद रखूँगा। यह चित्र 17 मार्च 2016 का है। जब इंदौर के पलासिया चौराहे स्थित बहुमंजिला इमारत शेखर सेंट्रल में हिंदी सांध्य दैनिक, डीएनएन टाइम्स में कार्यकाल के दौरान 18 मार्च को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 मार्च 2016 को खुशी के रूप में केक काटा गया और दिलीप जी ने मुझे केक खिलाया साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनुराग तागड़े व अन्य साथी भी थे। दिलीप जी आप सदा हमारी स्मृति में रहेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित। निशिकांत मंडलोई स्वतंत्र पत्रकार व फोटोग्राफर

डॉ. दीपमाला रावत को मां चमेलीदेवी नारी शक्ति सम्मान



खुलासा फर्स्ट... इंदौर। चमेलीदेवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मां चमेलीदेवी नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 का यह सम्मान विशिष्ट अतिथि डॉ. दीपमाला रावत विषय विशेषज्ञ जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन भोपाल को दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. माया इंग्ले, डॉ. यामिनी कर्माकर, डॉ. रेखा आचार्या, डॉ. बबिता हाईडिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अतिथि स्वागत उद्बोधन ग्रुप डायरेक्टर सीडीजीआई डॉ. जॉय बनर्जी ने किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉ. दीपमाला रावत ने ट्राइबल जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियों और उनके उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सभी विशिष्ट अतिथियों ने भी विचार व्यक्त किए। प्रिंसिपल सीडीजीआई, सीडीआईपीएस, सीडीआईपी और सीडीआईएल एवं स्टाफ उपस्थित था। कार्यक्रम में चेरपरसन डब्ल्यूडीसी बोनानी धर, हेड प्रियंका सोनी और सभी मेंबर्स का सराहनीय योगदान रहा। संचालन डॉ. गायत्री शर्मा ने किया। संयोजन जमील खान ने किया।

एंटरटेनमेंट डे के रूप में मनाया वुमंस डे, साथ में देखी फिल्म



खुलासा फर्स्ट... इंदौर। शहर के ग्रुप इन दिनों सोशल गेट टुगेदर के साथ हो ट्रेकिंग फिटनेस पार्टी जैसे आयोजन करने लगे हैं। शहर में वुमंस डे भी मनाया जा रहा, इसी को देखते हुए आरएस ग्रुप द्वारा वुमंस डे सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से एक दिनी एंटरटेनमेंट डे मनाया गया। ग्रुप की फाउंडर पीनल भट्ट ने बताया कि यह आयोजन मेंबर्स के लिए किया गया, जिसमें शहर के फीनिक्स सिटाडेल मॉल में सभी मेंबर्स एकत्रित हुए, जहां सभी ने एक साथ गेम्स खेले और मेंबर्स को शॉपिंग करते समय ध्यान में रखने वाली चीजों के बारे में बताया। मेंबर्स ने एक-दूसरे के साथ शॉपिंग भी की, जिसके बाद सभी को फिल्म दिखाई गई। सभी मेंबर्स ने वुमंस डे एक अलग अंदाज में मनाया।

सर्दी-खांसी वाले मरीज इन्फ्लूएंजा वायरस से घबराएं नहीं : डॉ. द्विवेदी

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। इन्फ्लूएंजा वायरस एच3एन वायरस का बढ़ता संक्रमण स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता का कारण बन गया है। बदलते मौसम में सीजनल होने वाली बीमारियों के बीच यह इन्फ्लूएंजा वायरस लोगों को दोहरे तौर पर बीमार कर रहा है। ऐसे में लोग इसे नार्मल सर्दी-खांसी-बुखार मानकर व जल्दी ठीक होने की आशा में अपने हिसाब से दवा खा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। इस वायरस की चपेट में आने वालों के लिए होम्योपैथिक में भी अनेक दवाएं हैं जो मरीज को कुछ ही दिनों में राहत देने में कारगर है। वहीं होम्योपैथिक दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और यह सुरक्षित भी है।

इंदौर के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक और आयुष मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. एके द्विवेदी के अनुसार इन्फ्लूएंजा एच3एन2 वायरस में मरीज को पहले गले में खराश, कफ, बदन दर्द, सीने में हल्का दर्द, जुखाम, बुखार और फिर उसके बाद खांसी व बाद में पेट में हल्का दर्द होता है। उक्त सभी इन्फ्लूएंजा एच3एन2 वायरस के मुख्य लक्षण है। इससे घबराएं नहीं और कोई भी उल्टी-सीधी दवा ना लें। डॉ. द्विवेदी बताते हैं कि आयुष मंत्रालय द्वारा बताई गई होम्योपैथी की दवा आर्सेनिक एल्बम लोगों की इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ बार-बार होने वाली सर्दी, खांसी और जुखाम से भी बचा सकती है। इस तरह बचे इन्फ्लूएंजा प्लू से : संक्रमण से प्राथमिक तौर पर बचाव के लिए आमजन गुनगुने पानी में नमक, हल्दी व फिटकरी डालकर गरारे करें, दूध पिये तो हल्दी मिलाकर पिये, चाय में तुलसी के पत्ते उबालकर पिये, फेस मास्क पहनें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहें, नाक और मुंह छूने से बचें, खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करें, खुद को हाइड्रेट रखें, पानी के अलावा फ्रूट जूस या अन्य पेय पदार्थ लेते रहें।

अग्रवाल महासभा का परिचय सम्मेलन

युवतियों ने दहेज मुक्त विवाह करने वाले युवक को दी प्राथमिकता

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

श्री अग्रवाल महासभा की मेजबानी में शनिवार को गांधी हाल प्रांगण में तीन दिवसीय अ.भा. युवक-युवती परिचय सम्मेलन का शुभारंभ मंच पर सबसे पहले परिचय देने पहुंची युवतियों ने दीप प्रज्वलन कर एवं ब्रह्मलीन मिश्रीलाल गोयल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। समाजसेवी मिश्रीलाल गोयल की स्मृति में हो रहे इस सम्मेलन में पहले दिन 210 प्रत्याशियों ने मंच पर पहुंचकर अपने परिचय दिए और भावी जीवन साथी के बारे में अपनी प्राथमिकताएं बताईं। किसी को आईटी सेक्टर में कार्यरत जीवनसाथी चाहिए तो किसी को स्वयं के कारोबार में स्थापित प्रत्याशी। कुछ युवती प्रत्याशियों ने मंच से ही संकल्प व्यक्त किया कि वे दहेज मुक्त विवाह करने वाले प्रत्याशी को प्राथमिकता देंगी।

महासभा के समन्वयक संतोष गोयल, अध्यक्ष डॉ. सतीश गोयल, महामंत्री महामंत्री अजय बंसल और मनीष जैन ने बताया कि देश के दस हिंदी भाषी राज्यों से 1250 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इनमें 640 युवक और 530 युवती प्रत्याशी व 80 विशिष्ट श्रेणी के प्रत्याशी शामिल हैं। महासभा की ओर से परिचय सम्मेलन का यह लगातार 30वां आयोजन है। सम्मेलन स्थल पर



'निहारिका गैलरी' पूरे समय आकर्षण का केन्द्र बनी रही, जिसमें सभी 1250 प्रत्याशियों के चित्र और उनके पंजीयन क्रमांक दिए गए हैं। परिचय पुस्तिका में भी इन सभी प्रत्याशियों के सचित्र विवरण प्रकाशित किए गए हैं। प्रत्याशियों एवं पालकों की सुविधा के लिए परिचय पुस्तिका का विमोचन सम्मेलन शुरू होने के पहले ही अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंघल के आतिथ्य में समाजसेवी सत्यनारायण गर्ग, नवीन गोयल, एल. बी. अग्रवाल, रमेश तायल, सुरेश गुप्ता, श्याम अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, इंदु अग्रवाल ने

किया। सम्मेलन के पहले दिन 210 प्रत्याशियों ने मंच पर पहुंचकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं। महिला मंडल की ओर से उर्मिला गोयल, भावना अग्रवाल, पुष्पा गुप्ता, पिकी अग्रवाल, प्रज्ञा अग्रवाल, राधा अग्रवाल ने सभी मेहमानों की अगवानी की। प्रत्याशी परिचय की कमान राजेश इंजीनियर एवं इंदु अग्रवाल ने संभाली। उज्जैन के प्रख्यात पं. नवीन पंड्या यहां कुंडली मिलाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वल्पाहार, भोजन, चाय की रियायती दर पर व्यवस्था के साथ ही संपूर्ण परिसर को पूरी तरह पॉलिथीन एवं डिस्पोजल मुक्त रखा गया है।

एसजीएसआईटीएस के वार्षिकोत्सव 'आयाम' का समापन

अच्छे इंजीनियर बनने के साथ देश के प्रति कर्तव्यों का भी निर्वहन करें



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एसजीएसआईटीएस के वार्षिकोत्सव 'आयाम' का समापन कल स्वर्ण पदक वितरण समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम के तहत पहले दिन इवांड एक रोबोटिक युद्ध, क्लब प्रतिबिंब द्वारा आर्ट ए होलिक में पेंटिंग, एनसीसी की अवरोध बाधा प्रतियोगिता और अन्य एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इस वर्ष 24 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक, एक छात्र को मेरिट स्कॉलरशिप और नौ छात्रों को प्रोत्साहन पत्र दिए गए।


डॉ. कृष्णाकांत धाकड़ आईपी विभाग को भी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि रामप्रकाश अहिरवार, जो कि संस्थान के भूतपूर्व छात्र भी रहे हैं, उन्होंने अपने छात्र जीवन की कुछ घटनाएं साझा की और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे न केवल एक अच्छे इंजीनियर बनें, अपितु समाज और देश के प्रति संवेदनशीलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें।

विद्यार्थियों को दिए स्वर्ण पदक

इस वर्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिद्धि जैन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गौतम अग्रवाल और सिलिल इंजीनियरिंग के अरुण कुमार खटीक को दो-दो स्वर्ण पदक मिले। बी फॉर्मसी की स्वर्ण पदक विजेता प्रियंका जांगीड़, जो कि अभी अमेरिका में अध्ययनरत हैं, उनका स्वर्ण पदक उनके दादा-दादी ने लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीईओ, आईडीए इंदौर इंजीनियर आरपी अहिरवार और अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक चितले थे। इन स्वर्ण पदक में 2 पदक डॉ. पीके सेन मेमोरियल और डॉ. केके हलदर मेमोरियल पदक पहली बार दिए गए। डायरेक्टर डॉ. राकेश सक्सेना, समन्वयक डॉ. स्मिता वर्मा और डॉ. प्रीति त्रिवेदी भी मौजूद थे। इस वर्ष संस्थान के पूर्व निदेशक जेपी श्रीवास्तव के सम्मान में डॉ. जे. पी. श्रीवास्तव बेस्ट टीचर अवॉर्ड भी दिया गया।

'तुझी आठवण' की प्रस्तुति 22 को

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। सानंद न्यास के उपक्रम फुलारा के तहत 22 मार्च को 'गुड़ी पड़वा' उत्सव में शास्त्रीय गायिका सावनी शेंडे और कवि, गीतकार, गजलकार वैभव जोशी कार्यक्रम 'तुझी आठवण' की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम यूसीसी ऑडिटोरियम देवी अहिल्या विवि परिसर, खंडवा रोड पर शाम 7 बजे होगा। सानंद न्यास के अध्यक्ष श्रीनिवास कुटंबळे एवं मानद सचिव जयंत भिसे ने बताया कि 26 साल से संस्था द्वारा गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जा रहा है। 22 मार्च को उत्सव में सावनी शेंडे और वैभव जोशी कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे।



मम्मी-पापा एवं सम्मान राठी परिवार

स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए जुटाए

दुनियाभर में अपना बिजनेस फैला रही इंदौर की कंपनियां

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

इंदौर की कंपनियां स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए का फंड आसानी से जुटा रही हैं और अपने बिजनेस को दुनियाभर में विस्तार दे रही हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में इंदौर की इंफोबिस टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, डीपी ज्वेलर्स लिमिटेड, ईकेआई एनर्जी लिमिटेड और सिस्टैंगो टेक्नोलॉजिस लिमिटेड ने स्टॉक मार्केट से फंड जुटाकर दुनियाभर में अपने बिजनेस का विस्तार किया है। यह बातें इंदौर में आयोजित एसएमई आईपीओ कॉन्क्लेव में बताई गईं।

फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हेम सिक्वोरिटीज लिमिटेड के गौरव जैन और प्रतीक जैन ने कहा कि मप्र में इंदौर की कंपनियों में सबसे अधिक पोर्टेबिलिटी



है। यहां पर हर सेमेंट की कंपनी अपने बिजनेस को विस्तार करने की क्षमता रखती है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में जो डवलपमेंट हो रहा है वह

यहां के बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुपर कॉरिडोर, आईटी पार्क, स्टार्टअप पार्क और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं यहां

के बिजनेस को ऊंचाइयां दी जा रही हैं। इस कॉन्क्लेव में दो सौ से अधिक उद्यमी पहुंचे और अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने उद्यमियों को स्टॉक एक्सचेंजों पर खुद को सूचीबद्ध करने के तरीके बताए और आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग के फायदों को समझाया।

कार्यक्रम में वेल्थ क्रिएशन, लिस्टिंग के बाद आईपीओ की यात्रा पर इंटरएक्टिव पैनल डिस्कशन हुआ। एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इंदौर की कंपनियों के प्रमुख ने भी अपने अनुभव साझा किए। मप्र के सभी प्रमुख संघ जैसे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, पीथमपुर औद्योगिक संस्थान, इन्वेस्ट इंदौर और इंडियन ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी पहुंचे।

360 करोड़ रुपए का फंड जुटाया

मप्र में कितना पोर्टेबिलिटी है यह इस बात से पता चलता है कि हाल ही के कुछ वर्षों में मप्र की 20 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस (एसएमई) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से 360 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। यह आंकड़ा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इनमें अधिकतर पारंपरिक बिजनेस वाली कंपनियां हैं जिन्होंने पहली बार धन जुटाने के लिए एनएसई की तरफ रुख किया। यह बात एनएसई की वाइस प्रेसिडेंट रचना भुसारी ने बताई। वे इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आई थीं।

प्रेस क्लब में लगा नेत्र शिविर

200 से अधिक मीडियाकर्मियों ने करवाई आंखों की जांच



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मीडियाकर्मियों के लिए आंखों की सुरक्षा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आंखें सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला अंग और हर व्यक्ति में ईश्वर का यह सबसे अनमोल उपहार है। मीडियाकर्मियों अपनी आंखों की अच्छी केयर करें। हर 6 माह या वर्ष में एक बार आंखों की जांच कराएं। अंधेरे में बैठकर टीवी न देखें, लेटकर टीवी न देखें।

यह बात डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. हर्ष मोने ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित मीडिया के साथियों और उनके परिजनों के लिए आयोजित शिविर में कही। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपनी आंखों की अवश्य जांच कराएं, क्योंकि कई बार आंखों के रोग दिखाई नहीं देते। 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को ग्लूकोमा कांच बिंद हो सकता है। यह आनुवंशिक बीमारी भी है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता से दूर हो सकती है। आंखों में लुब्रिकेटिंग ऑयल

डालें। हर आधा घंटे में 30 सेकंड आंखें बंद रखें। 10 से 15 फीट दूर से टीवी देखें। यह छोटी-छोटी सावधानियां रखने से आंखों की

कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने आंखों की जांच करवाई। इसमें कुछ को मोतियाबिंद या कांचबिंद जैसी आंखों की समस्या होने पर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद हॉस्पिटल की टीम का इंदौर प्रेस क्लब महासचिव हेमंत शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य विपिन नीमा, प्रवीण बरनाले और वरिष्ठ पत्रकार नवीन जैन, सचिन शर्मा ने स्वागत किया। शिविर में

सौरभ उपाध्याय, बलराम शर्मा, अक्षय कुमार और रवि सोलंकी ने अपनी सेवाएं दीं। आभार कोषाध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने माना।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं का किया सम्मान



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

रवींद्र नाट्य गृह में संस्था प्रत्यंचा द्वारा कल सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 40 वर्ष की प्रैक्टिस आयु पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं का सम्मान जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सूरज शर्मा, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया दोनों अभिभाषक संघ की समस्त कार्यसमिति और 12 सौ से अधिक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे, जिसमें 145 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने कहा कि जिन

अधिवक्ताओं ने 40 वर्षों की प्रैक्टिस पूर्ण की है आज उन्हें सम्मानित करते हुए हम खुद गौरवावित हो रहे हैं। ये वो अनमोल मोती है जिन्हें संस्था प्रत्यंचा के द्वारा सम्मानित कर उच्च सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं प्रत्यंचा का अर्थ बताते हुए कहा कि धनुष न्यायालय और अधिवक्ता धनुष की प्रत्यंचा है, जिससे यह परिभाषित होता है कि न्यायालय और अधिवक्ता वास्तव में न्याय पालिका के अनमोल स्तंभ हैं।

वहीं जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने कहा 40 वर्ष तक विधि व्यवसाय करना अपने आप में एक तपस्या है जो कि आसान कार्य नहीं है ऐसे वरिष्ठ मार्गदर्शकों का सम्मान कर मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आभार संस्था के संदीप शर्मा द्वारा व्यक्त किया। अतिथि स्वागत संस्था संयोजक निमेष पाठक द्वारा किया गया।

विजय नगर झोन

जाहिर सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक (1) श्री रवि किरण पिता पुरुषोत्तम कोटीभास्कर (2) श्रीमती मीजा पति रविकिरण कोटीभास्कर द्वारा झोन क्रमांक 8 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयत नामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर भूखंड पिन क्र. 1003121674, 176, एम.आर.5, महालक्ष्मी नगर का नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दि. 19 मार्च 2023 से 7 दिवस की समयावधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त संपत्ति के नामांतरण में आपत्ति हो तो झोन क्र. 8 (विजय नगर) के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी, विजय नगर झोन क्रमांक 8 नगर पालिका निगम, इंदौर

विजय नगर झोन

जाहिर सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक (1) श्रीमती अंजली पति नवीन वेद (2) जूही पति मनीष दुबे द्वारा झोन क्रमांक 8 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयत नामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर भूखंड पिन क्र. 1003104657, 11, गर्ग रिपोर्ट्स, ग्राम निपानिया का नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दि. 19 मार्च 2023 से 7 दिवस की समयावधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त संपत्ति के नामांतरण में आपत्ति हो तो झोन क्र. 8 (विजय नगर) के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी, विजय नगर झोन क्रमांक 8 नगर पालिका निगम, इंदौर

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

सतगुरु नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर

कार्यालय-6, जगजीवनराम नगर, पाटनीपुरा मेनरोड, इंदौर

पंजीयन क्र. - डी.आर./आय.डी.आर./248 दिनांक: 23-04-1980

क्रमांक/निर्वाचन/2023/ इंदौर, दिनांक: 17-03-2023

सदस्यता सूची का प्रथम प्रकाशन

एतद द्वारा संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता जिला इंदौर, कार्यालय जनपद पंचायत इंदौर एवं कार्यालय इंदौर प्रीमियर को ऑफरटिव बैंक लि., शाखा राजबाड़ा, इंदौर के सूचना पटल पर दिनांक 17-03-2023 को किया जाकर सूची पर दिनांक 24-03-2023 तक दावा आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु सूचना समस्त सदस्यों को साधारण डाक से उनके अंतिम ज्ञात पते पर प्रेषित की गई है। यदि किसी सदस्य को किसी कारणवश डाक से सूचना प्राप्त न हो तो कृपया इस विज्ञापित को सूचना मानते हुए प्रकाशित सूची पर उल्लेखित दिनांक तक दावा आपत्तियां श्री गजराजसिंह जगुसिंह देवड़ा, सहायक, मो.नं. 96176 95656 को प्रशासकीय संकुल कक्ष नं. 303, सेटलाइट भवन, कलेक्टोरेट परिसर, इंदौर पर समय दोपहर 12.00 से 2.00 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण दिनांक 25-03-2023 को दोपहर 12.00 बजे से उपरोक्त स्थान पर किया जावेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी उप आयुक्त, सहकारिता जिला इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 27-03-2023, 28-03-2023 एवं दिनांक 29-03-2023 को प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निराकरण की अंतिम तिथि 05-04-2023 नियत की गई है।

(आर.एस. जायसवाल), उप अंकेक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सतगुरु नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर

नाव पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा



पंडित प्रकाश जोशी

(9009430739)

खुलासा फर्स्ट

चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही पिंगल नामक संवत् भी शुरू हो जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता का वाहन नाव होगी, जो इस बात का संकेत है इस साल खूब वर्षा होगी। पूरे साल चार नवरात्रि आती है, जिनमें आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि सबसे ज्यादा समाज में प्रचलित है। कहा जाता है कि सतयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित चैत्र नवरात्रि थी, इसी दिन से युग का आरंभ भी माना जाता है। इसलिए संवत् का आरंभ में चैत्र नवरात्रि से ही होता है।


खुलासा फर्स्ट डेस्क

चैत्र नवरात्रि में अबकी बार पूरे नौ दिनों की नवरात्रि होगी। नवरात्रि के दौरान तीन सर्वार्थ बार सिद्धि योग 23 मार्च, 27 मार्च, 30 मार्च को लगेगा। जबकि अमृत सिद्धि योग 27 और 30 मार्च को लगेगा। रवि योग 24 मार्च, 26 मार्च और 29 मार्च को लगेगा। और नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी के दिन गुरु पुष्य योग भी रहेगा। आइए जानते हैं इन शुभ योगों के बीच चैत्र नवरात्रि की प्रमुख तिथियां, किस दिन किस देवी की पूजा होगी।

चैत्र नवरात्रि की तिथियां

- चैत्र नवरात्रि पहला व्रत मां शैलपुत्री की पूजा, घटस्थापना - 22 मार्च
- दूसरा व्रत मां ब्रह्मचारिणी की पूजा - 23 मार्च
- तीसरा व्रत मां चंद्रघंटा की पूजा - 24 मार्च
- चौथा व्रत मां कूष्मांडा की पूजा - 25 मार्च
- पांचवां व्रत मां स्कंदमाता की पूजा - 26 मार्च
- छठा व्रत मां कात्यायनी की पूजा - 27 मार्च
- सातवां व्रत मां कालरात्रि की पूजा - 28 मार्च
- आठवां व्रत मां महागौरी की पूजा - 29 मार्च
- नवमी व्रत मां महागौरी की पूजा की की पूजा - 30 मार्च, राम नवमी तिथि

22 मार्च से 30 मार्च तक मां दुर्गा की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी। 9 दिनों तक मां जगदंबा के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। देवी दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक हैं।



चैत्र नवरात्रि की नवमी पर क्या करें

नवरात्रि में लोग मान्यता अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कुल देवी की पूजा के बाद, 9 कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराया जाता है। इन 9 कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भोजन के बाद उन्हें कुछ उपहार देकर आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्या पूजन के बिना देवी दुर्गा के 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है।

इस दिन घरों में यज्ञ और हवन भी किए जाते हैं। मान्यता है हवन के बाद ही नवरात्रि के 9 दिन की पूजा सफल होती है। वहीं कुछ लोग इस दिन शाम की पूजा के बाद नवरात्रि व्रत का पारण भी करते हैं।

- चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन (22 मार्च 2023) - प्रतिपदा तिथि, मां शैलपुत्री पूजा, घटस्थापना
- चैत्र नवरात्रि दूसरा दिन (23 मार्च 2023) - द्वितीया तिथि, मां ब्रह्मचारिणी पूजा
- चैत्र नवरात्रि तीसरा दिन (24 मार्च 2023) - तृतीया तिथि, मां चंद्रघण्टा पूजा

- चैत्र नवरात्रि चौथा दिन (25 मार्च 2023) - चतुर्थी तिथि, मां कुष्माण्डा पूजा
- चैत्र नवरात्रि पांचवां दिन (26 मार्च 2023) - पंचमी तिथि, मां स्कंदमाता पूजा
- चैत्र नवरात्रि छठा दिन (27 मार्च 2023) - षष्ठी तिथि, मां कात्यायनी पूजा
- चैत्र नवरात्रि सातवां दिन (28 मार्च

- 2023) - सप्तमी तिथि, मां कालरात्री पूजा
- चैत्र नवरात्रि आठवां दिन (29 मार्च 2023) - अष्टमी तिथि, मां महागौरी पूजा, महाष्टमी
- चैत्र नवरात्रि नवां दिन (30 मार्च 2023) - नवमी तिथि, मां सिद्धीदात्री पूजा, दुर्गा महानवमी, राम नवमी

नवरात्रि व्रत पारण 31 मार्च

धार्मिक मान्यता है कि 9 दिनों में माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली आदिमाया साधक अपने भक्तों के कष्ट दूर करने नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी पर आती हैं। जैसे तो नवरात्रि के नौ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन अष्टमी और नवमी का खास महत्व है।

चैत्र नवरात्रि 2023 घटस्थापना मुहूर्त : कलश स्थापना मुहूर्त - सुबह 06:29 - सुबह 07:39 (22 मार्च 2023)

चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी इस बार 29 मार्च 2023 को है। नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होता है। उदयातिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 29 मार्च 2023 को रखा जाएगा। इस दिन शोभन योग और रवि योग का संयोग बन रहा है।

शोभन योग - 28 मार्च, रात 11:36 - 29 मार्च, प्रातः 12:13

रवि योग - 29 मार्च, रात 08:07 - 30 मार्च, सुबह 06:14

अष्टमी के दिन घरों में कुल देवी की पूजा की जाती है। देवी को इस दिन लाल चूनर जरूर अर्पित करें। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। इस दिन सुहागिन को सुहाग की सामग्री भेंट करें।

चैत्र नवरात्रि में नवमी 30 मार्च 2023 को है। इसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन होता है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 29 मार्च 2023 को रात 09:07 से शुरू हो रही है जिसका समापन 30 मार्च 2023 को रात 11:30 को होगा। इस दिन 4 शुभ योग का संयोग बन रहा है।

गुरु पुष्य योग - 30 मार्च 2023, 10:59 - 31 मार्च 2023, सुबह 06:13

अमृत सिद्धि योग - 30 मार्च 2023, 10:59 - 31 मार्च 2023, सुबह 06:13

सर्वार्थ सिद्धि योग - पूरे दिन
रवि योग - पूरे दिन


इस तरह करें पूजा... चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन व्रत का पारण लिया जाता है। बहुत से भक्त नवरात्रि पर नौ दिन व्रत रखते हैं। इस दिन कलश में जल भरकर पूजा स्थल पर रखा जाता है। कलश के मुख पर कालावा बांधें और फिर ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखकर नारियल रख दें। इसके बाद धूप व दीप जलाकर मां दुर्गा की आरती व पूजा करें।

पेपर लीक कांड की तुलना हो रही व्यापम घोटाले से

18 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर

खुलासा फर्स्ट... भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार के दामन से व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले का दाग पूरी तरह धुला नहीं है। इसी बीच, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10-12वीं के पेपर लीक भी सामने आ गया है। दोनों ही परीक्षाओं में शामिल प्रदेश के 18 लाख 22 हजार स्टूडेंट का भविष्य दांव पर है। गौर से देखें, तो व्यापम घोटाला और एमपी बोर्ड पेपर लीक में बड़ा कनेक्शन है। व्यापम



घोटाले में विभाग से जुड़े लोग शामिल रहे। वहीं, एमपी बोर्ड पेपर लीक को भी विभाग से जुड़े लोगों ने ही अंजाम दिया है। मामले में शनिवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

एमपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं की परीक्षा शुरू होने के साथ ही खबरें आने लगी कि पेपर लीक किया जा रहा है। हालांकि इसे अफवाह बताया गया। शिक्षा मंडल ने भले ही नकार दिया हो, लेकिन

उसने 9 केंद्राध्यक्षों और सहायक केंद्राध्यक्षों को परीक्षा की विश्वसनीयता भंग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। इसके बाद मंडल पर सवाल खड़े हो गए। इसी बीच, शनिवार को भोपाल में केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ दो पर्यवेक्षक (सरकारी स्कूल के शिक्षक) को पेपर लीक करने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से साफ है कि पेपर विभाग के ही कर्मचारी-अधिकारी की मिलीभगत से लीक हुए।

व्यापम, एमपी बोर्ड पेपर लीक कांड में समानता

व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं की शिकायतें सामने आती थीं। शुरू में इसे अफवाह बताकर पल्ला झाड़ते रहे। दबाव बनने पर जांच के नाम पर मामला बढ़ा दिया जाता। वजह साफ थी कि घोटाले में व्यापम के सीनियर अफसर शामिल रहे। बाद में जांच के लिए गठित एसटीएफ ने इन्हें दबोचा।

इसी तरह, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसर पेपर लीक होने की सूचना अफवाह बताते रहे। यही नहीं, मंडल ने क्राइम ब्रांच में एफआईआर तक करा दी। पुलिस ने शनिवार को मंडीदीप से कौशिक दुबे को सोशल मीडिया पर बोर्ड एग्जाम का पेपर बेचने के आरोप में पकड़ा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने भोपाल के छोला इलाके विद्यासागर स्कूल परीक्षा केंद्र से चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और दो पर्यवेक्षक शामिल रहे। दोनों पर्यवेक्षक एग्जाम शुरू होने से आधा घंटे पहले ही पेपर वॉट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते थे।

जनभागीदारी के लिए बनाया नोडल एजेंसी, एनजीओ महाकुंभ में सीएम की घोषणा जन अभियान परिषद हुई और मजबूत



खुलासा फर्स्ट... भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है स्वैच्छिक संगठनों को एकजुट कर पर्यावरण-संरक्षण, योजनाओं के क्रियान्वयन और कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में जन-कल्याण के कार्यों से जुड़ी रही जन अभियान परिषद शासकीय योजनाओं में जनता की भागीदारी के लिए नोडल एजेंसी बनेगी। साथ ही प्रदेश में काम करने वाले प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को परिषद के पोर्टल में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहेगा। परिषद जन-कल्याण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। इस नाते परिषद से जुड़े सभी लोग बहनों के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ हुई लाइली बहना योजना और नए मप्र के निर्माण के संकल्प में संकल्पबद्ध होकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रदेश में कार्यशील जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के मेंटर्स एवं स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों के राज्य स्तरीय महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन का दीप जलाकर शुभारंभ किया। प्रारंभ में सरस्वती वंदना और राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम का गायन हुआ। कन्या-पूजन और बहनों के पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री का प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आई बहनों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री

श्री चौहान ने भी बहनों का शाल ओढ़ा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने परिषद की पुस्तिका "प्रेरणा पथ" एवं अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा जन अभियान परिषद ने अद्भुत कार्य किया है। यह स्वैच्छिक संगठनों का महासंगठन है, जो अब एक वट वृक्ष बन गया है। परिषद ने जल-संरक्षण, नशा-मुक्ति और ऊर्जा की बचत जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। वर्ष 2019 में परिषद की गतिविधियों को तत्कालीन सरकार ने प्रोत्साहित करने के स्थान पर बंद करने का कार्य किया। नवांकुर संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय मदद बंद कर दी गई। समाज-सेवा से जुड़े लोग तत्कालीन सरकार को चुभ रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि औरों के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। सिर्फ अपने लिए जीने का कोई अर्थ नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार की योजनाएँ जनता तक पहुंचाने के लिए परिषद परिश्रम के साथ कार्य कर रही है। समाज को जोड़ कर ही चमत्कार किया जा सकता है। जनता के कल्याण का चमत्कार तभी होगा, जब समाज सरकार के साथ खड़ा हो। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर ले जाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा

कि एक समय था जब सड़कों की कोई सुविधा नहीं थी। बिजली और सिंचाई का अभाव था। आज मध्यप्रदेश इन क्षेत्रों में आत्म-निर्भर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। पूरा देश प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ खड़ा है। पड़ोसी देश भी अपने यहां मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होने की ख्वाहिश रखते हैं। कोविड के दौर में प्रधानमंत्री ने देशवासियों की सहायता कर उनकी हिम्मत बढ़ाने का कार्य किया। भारत में वैक्सीन निर्मित की गई। जन अभियान परिषद ने भी कोरोना के दौर में जनता के हित में अच्छा कार्य किया।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

- मध्यप्रदेश जन अभियान प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परिषद नोडल एजेंसी रहेगी।
- मध्यप्रदेश में कार्यरत प्रत्येक एनजीओ को जन अभियान परिषद के पोर्टल में पंजीकरण करना और वार्षिक प्रतिवेदन एवं गतिविधियों को अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- राज्य शासन का प्रत्येक विभाग अपने विभाग द्वारा कराए जाने वाले विविध योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य, सर्वे एवं जन-भागीदारी के सभी कार्य जन अभियान परिषद को सौंपेगा।

महिला नायब तहसीलदार की दादागिरी

सीएम हेल्पलाइन शिकायत वापिस नहीं ली तो भेजा जेल

खुलासा फर्स्ट... खंडवा

खंडवा जिले में सीएम हेल्पलाइन पर हुई एक शिकायत को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन अत्याचार पर उतर आया है। यहां कॉल सेंटर 181 में की गई शिकायत को वापस नहीं लेने पर युवक को जेल भेज दिया। आरोप महिला नायब तहसीलदार पर लगा है।

ग्राम रोहणी निवासी 70 वर्षीय गीताबाई के पति की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग महिला को पेंशन के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी मिल रही थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि उसे केवल दो बार ही मिली। उसके खाते में रुपए जमा होना बंद हो गए। दो साल तक जब महिला

को योजना का लाभ नहीं मिला तो वह नवासे शुभम के साथ सरपंच और पटवारी से मिली। पटवारी ने महिला को आधार ई केवायसी कर आधार अपडेट करवाने को कहा। आधार केंद्र पर मशीन में अंगूठे का निशान नहीं आने से महिला का आधार अपडेट नहीं हो रहा था। परेशान महिला ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की। इसके चलते बुजुर्ग महिला को शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय खंडवा बुलाया गया था। जहां वह नवासे शुभम राजपूत के साथ पहुंची। गीताबाई ने बताया शुभम के साथ वह नायब तहसीलदार माला राय की कोर्ट में पेश हुईं। यहां उसे कहा गया शिकायत वापस ले लो लेकिन उसने व शुभम ने आधार कार्ड अपडेट करवाए बिना



शिकायत वापस लेने से मना कर दिया। महिला का आरोप है इस पर नायब तहसीलदार ने उसे डराया और शुभम को जेल भेज दिया।

शुभम राजपूत को पुलिस ने खंडवा जेल भेजा था लेकिन बुजुर्ग नानी उसके इंतजार में तहसील कार्यालय में ही बैठी रही। इस बीच

उसके एक रिश्तेदार सुनील जलखरे को मालूम चलने पर वे भी तहसील कार्यालय पहुंचे। हालांकि शाम करीब सात बजे शुभम को जेल से छोड़ दिया गया। शुभम ने बताया उसका यही कुसूर था उसकी नानी ने 181 पर की गई शिकायत वापस नहीं ली थी। इसके लिए उसे नायब तहसीलदार ने जेल भेज दिया।

आरोप बेबुनियाद : नायब तहसीलदार माला राय का कहना है कि बेवजह आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत का निराकरण करने के लिए गीताबाई को बुलाया था। गीता बाई का नवासा शुभम आया था। उसे आधार अपडेट के संबंध में जानकारी दी गई, लेकिन वह शोर मचाते हुए विवाद करने लगा। इस वजह से उस पर धारा 151 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

शोक संदेश



आपकी इस दुःख की घड़ी में हम हैं आपके साथ

आपके अपने अखबार **खुलासा फर्स्ट** में निःशुल्क दे सकते हैं शोक संदेश

संपर्क करें :- 88189-56789, 0731-4046789

आप हमें E-Mail भी कर सकते हैं

khulasafirst@gmail.com

किसानों ने रूंधे गले से सुनाई व्यथा

ओला पीड़ितों को विधायक बिरला ने बंधाया ढाढस

खुलासा फर्स्ट... बड़वाह

विधायक सचिन बिरला ने काटकूट क्षेत्र में बेमौसम वर्षा और ओला प्रभावित ग्रामों का दौरा किया। चैनपुरा, चंद्रपुरा और गवलनपाटी के पीड़ित किसानों से विस्तृत चर्चा की। किसानों ने अशुभपूर्ण नेत्रों से अपनी व्यथा व्यक्त की। विधायक ने दुःखी किसानों को ढाढस बंधाया और कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार उनके साथ है। विधायक ने पीड़ित किसानों को आश्वासन दिया कि ओलावृष्टि के कारण हुई हानि का सर्वेक्षण किया जाएगा और सभी पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा।

वर्षा और ओलावृष्टि के कारण खेतों में गेहूं की कटी फसल खराब और कपास की फसल प्रभावित हुई है। विधायक ने बताया चैनपुरा में लगभग 280, चंद्रपुरा में 125 एकड़ और गवलनपाटी में लगभग 60 एकड़ भूमि पर लगी गेहूं व कपास की फसलें प्रभावित हुई हैं। विधायक ने एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी को हानि का आकलन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। शुक्रवार रात वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को काफी क्षति



पहुंची है। इससे किसान चिंतित हैं। निरीक्षण के दौरान कृषि अधिकारी, वन विभाग के रेंजर, नाकेदार, राजस्व निरीक्षक, भाजपा नेता लक्ष्मण काग, अनोकचंद मंडलोई, नरहरि दांगी, शिवनारायण दांगी, काटकूट

सरपंच राकेश बड्डे, ओखला सरपंच मयाराम पटेल, लिंबी सरपंच कैलाश बघेल, सरपंच मेहंदीखेड़ा संतोष अचले, बाला पटेल, नंदराम जाट, परमानंद दांगी, मुकेश चोटिया, ललित रावत, ललित जाट आदि उपस्थित थे।

हम शेर हैं इसलिए जंगल में, वन मंत्री किस बिल में ?

विधायक शेरा ने दिखाए तेवर- जंगल में किया भ्रमण

खुलासा फर्स्ट... बुरहानपुर | नेपानगर में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल अतिक्रमणकारी साफ कर चुके हैं लेकिन सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाया। विधायक ठाकुर सुरेंद्रसिंह शेरा ने अपने नाम की तरह तेवर दिखाते हुए जंगल भ्रमण किया। उन्होंने साईंखेड़ा, डाबिया खेड़ा, घाघरला गाँव का दौरा कर ग्रामीणजनों से चर्चा की। विधायक शेरा ने झोन से अतिक्रमण के लिए जंगल में हो रही

कटाई भी देखी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों से बात करने को कहा लेकिन वन अधिकारी, एसडीओ और पुलिस ने जाने से रोक दिया क्योंकि मात्र 02 किमी दूर ही अतिक्रमणकारी हथियार के साथ मौजूद थे। शेरा जिद्द पर अड़े रहे लेकिन प्रशासन नहीं माना। शेरा का कहना रहा अतिक्रमणकारियों से बात करना जरूरी है। इस समस्या का समाधान करना है, शेरा ने विजय शाह पर भी तंज कसा कहा किस

बिल में छुपकर बैठे हैं वन मंत्री ? हम शेर हैं इसलिए भय के दौर में भी जंगल में हैं विजय शाह में हिम्मत है तो आएँ बात करते हैं, आज बिल में हम नहीं मंत्री बैठे हैं।

विधायक शेरा ने जंगल अतिक्रमण का यह मुद्दा विधानसभा में उठाया है लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं जिसके बाद शेरा भैया ने इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक लड़ने का फैसला किया है।

बड़े व्यापारियों की अनदेखी करते हैं अधिकारी



खुलासा फर्स्ट... बुरहानपुर | कमल तिराहे के समीप कुंदन स्वीट्स एवं कुंदनपुरी केंद्र ने वर्षों से आम सड़क को ग्राहकों का पार्किंग स्थल बना रखा है। आए दिन चार सौ से पांच सौ मोटर साइकिल खड़ी रहती हैं। रोड की चौड़ाई पहले ही कम है छोटे छोटे व्यापारी पेट पालने के लिए छोटे छोटे स्टोल लगा के बैठे बचा कुछ रोड यातायात एवं खरीदारों से जाम इस तरह से होता है कि पैदल चलने वाला राहगीर भी आसानी पूर्वक खरीदारी नहीं कर पा रहा है एक तरफ शहनाईयो का मौसम और दूसरी तरफ त्योहारों का सिजन है जिसको खरीदारों की भीड़ भाड़ है जैसे स्थिती में सड़क पर लगी हुई व्यापारियों कि पार्किंग को नगर निगम एवं यातायात पुलिस ने मिलकर हटाना चाहिए ताकि रोड पर जाम न लगे। और राहगीर भी परेशान ना हो।

चौपाल पर चर्चा है कि कुंदन स्वीट्स एक बड़े ब्रांड का नाम है अगर जगह छोटे व्यापारी की होती तो नगर निगम एवं यातायात पुलिस कब की कार्यवाई कर चुका होता।

निगम करेगा सहयोग

यातायात पुलिस अतिक्रमण हटाने में नगर निगम का सहयोग चाहती है तो हम तैयार हैं।

- संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर

हम भी तैयार

नगर निगम अतिक्रमण हटाने में यातायात हमारा सहयोग चाहते हैं तो हम भी तत्पर हैं।

- हेमंत पाटीदार, सूबेदार, यातायात पुलिस थाना

हाथ जोड़ो का शंखनाद धरना-प्रदर्शन से

खुलासा फर्स्ट... बड़वाह | कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी 'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान का शंखनाद देश व प्रदेश की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रैली व धरना प्रदर्शन से हुआ। गैस, पेट्रोल, डीजल व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की महंगाई से त्रस्त नागरिकों और किसानों की समस्याओं को लेकर बड़वाह ब्लॉक व शहर कांग्रेस के बैनर तले शनिवार को रैली वार्ड 10 के जयमलपुरा से स्थानीय एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई। जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ता प्रदेश की शिवराज सरकार व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे।

नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण शर्मा रैली में आगे भाजपा की जनविरोधी नीतियों के पर्व आमजन में वितरित करते हुए चले। रैली महेश्वर रोड, जय स्तम्भ व मेन

चौराहे से होती हुई एमजी रोड से एसडीएम ऑफिस पहुंची। यहां सभी नेताओं ने धरना देकर रैली को संबोधित किया। कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल व पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष डॉंगर सिंह खंडाला ने कहा कि पिछले तीन चार दिनों से प्रदेश में अतिवृष्टि व ओलो से किसानों की फसले चौपट हो रही है। परन्तु संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने अभी तक किसानों की फसलों के सर्वे के आदेश जारी नहीं किए हैं। इन्होंने अति शीघ्र किसानों को राहत देने की मांग की।

लाइली बहना पर संदेह

सनावद नपाध्यक्ष प्रतिनिधि इंद्र बिरला ने प्रदेश सरकार की विफलताओं को बताते हुए कहा किसानों को फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा। बारिश-ओलों से फसलें तबाह हो रही हैं। किसान, मजदूर व गरीबों के साथ प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान है।

भुगतेंगा 20 साल की जेल

पीड़िता मुकर गई पर दुष्कर्मी बच नहीं पाया सजा से

खुलासा फर्स्ट... धार

कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। हालांकि पीड़िता कोर्ट के समक्ष अपने बयानों को लेकर मुकर गई थी, लेकिन घटना के बाद दिए बयानों को आधार मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा से दंडित किया है।

विशेष न्यायाधीश पंकज सिंह माहेश्वरी ने प्रकरण में दिए निर्णय के दौरान वर्ष 2015 में घटित इसी प्रकार के एक अपराध का जिक्र किया है, जिसमें भी पीड़िता सुनवाई के दौरान

अभियोजन के तर्क से असहमत हो गई थी, किंतु हाई कोर्ट ने आरोपी को डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर दंडित किया था।

इसी प्रकार नौगांव थाने पद दर्ज प्रकरण में भी आरोपी को सजा हुई है, पीड़िता ने पहले पुलिस के समक्ष अपने आपको नाबालिग बताया था, किंतु बाद में पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष स्वयं को 21 साल का होना बताया था। कोर्ट ने पूर्व में दिए गए बयानों सहित वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोकुल पिता कैलाश निवासी कानवन को सजा से दंडित किया है।

मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि पीड़िता के चाचा ने बताया कि घटना 9 जुलाई 2021 को दिन के समय नाबालिग लड़की घर से बिना बताए गायब हो गई थी। पीड़िता घटना वाले दिन अपने चाचा के घर पर थी। परिवार में तलाश करने के बाद परिजनों ने नौगांव पुलिस को सूचना दी। कुछ दिनों बाद पीड़िता को नौगांव पुलिस ने दस्तयाब किया व बयान दर्ज किए। जहां पर नाबालिग पीड़िता ने बताया कि आरोपी गोकुल उसे शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। साथ ही पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। अनुसंधान के बाद नौगांव पुलिस ने अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां पर पीड़िता ने स्वयं को बालिग बताते हुए पूर्व में दिए बयान का समर्थन नहीं किया। आरोपी घटना के सात माह बाद ही कोर्ट के समक्ष मुकर गई थी, किंतु कोर्ट ने पीड़िता के मुकरने पर यह माना कि आरोपी की ओर से संभवत पीड़िता को धमकाया होगा। जिसके चलते ही पीड़िता द्वारा समर्थन नहीं किया जा रहा है।

6 लाख की राशि भी मिलेगी

ऐसे में हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए उल्लेखित किया कि डीएनए रिपोर्ट व पूर्व के बयानों के आधार पर भी आरोपी को सजा सुनाई जा सकती है। इसी आधार पर धार में भी आरोपी को दुष्कर्म, अपहरण सहित पाँक्सो एक्ट में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को सजा सुनाने के दौरान धार कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को 6 लाख रुपए की प्रतिकार राशि देने के लिए भी आदेशित किया है।

धनाढ्य बिल्डरों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही सरकारी मशीनरी, हादसों पर होता है नोटिस का खेल

कई अन्य बिल्डिंग भी नक्शों के विपरीत, निगम बेबस

खुलासा फर्स्ट... देवास

खुलासा फर्स्ट ने 18 मार्च को अस्पतालों में बिना अनुमति के फायर इंस्ट्रूमेंट लगाने का खुलासा किया था लेकिन मामला केवल अस्पतालों का ही नहीं है। शहर में कई नई बिल्डिंग बन रही है, क्या उन्हें भी नगर निगम द्वारा इसी तरह बिना परमिशन के फायर इंस्ट्रूमेंट लगाने देगी? यह सवाल निगम अधिकारियों के गले नहीं उतर रहा है, उनके जवाब सवालों के विपरीत हैं।

मकसी रोड, एबी रोड, एमजी रोड, बीमा रोड जैसे व्यस्ततम एवं व्यावसायिक मार्गों पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का काम चल रहा है। कई लगभग बनकर तैयार हैं और कई में व्यवसाय प्रारंभ हो चुके हैं। ध्यान से देखें इनमें अधिकांश नक्शों के विपरीत ही नजर आती हैं। न तो पार्किंग की जगह है, न फायर इंस्ट्रूमेंट की अनुमति के लिए चारों तरफ खुला एरिया छोड़ा गया है। ऐसे कई नियमों का पालन नहीं किया गया है। बावजूद इसके नगर निगम द्वारा अब तक इन पर न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है।

हादसा होने पर होता है नोटिस का खेल

जब तक शहर में कोई बड़ी जनहानि या हादसा नहीं हो जाता सरकारी मशीनरी अपनी नींद निकालती रहती है। संबंधित विभाग तो सिर्फ बैठकर अपनी तोंद बढ़ाने में व्यस्त रहता है। उच्च अधिकारियों के बिना दबाव ये विभाग कभी कोई कार्यवाही नहीं करता। जब कोई बड़ा हादसा शहर में घटित होता है तब यह विभाग गहरी नींद से जागकर आनन-फानन में वह सब कुछ कर देता है जो कई सालों से नहीं होता, वह भी सिर्फ दिखावे के तौर पर या कागजी कार्यवाही में। बाद में थरातल पर कोई कार्यवाही नजर नहीं आती। क्योंकि गलती इन्हीं की होती है, पहले ही विभागों द्वारा बिल्डर या बिल्डिंग मालिक को सभी अनुमतियां प्रदान कर दी जाती है।

परमिशन ऑनलाइन

आज कल नक्शों संबंधी सारी परमिशन ऑनलाइन हो गई है। शहर में बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है, किसी एक की जानकारी दी जा सकती है। अगर सभी प्राप्त करना हो तो कार्यालय में आकर जानकारी लेना होगी। नक्शा हमेशा निर्माण कमिश्नरियल है या रेसीटेंडल उस पर निर्भर होता है। 10 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद ही नक्शा किसी भी एवज में पास करना होता है।

- नागेश वर्मा, भवन अधिकारी, नगर निगम देवास

धनाढ्य बिल्डर्स के आगे नगर निगम नतमस्तक

शहर में ऐसे बिल्डर्स जो कि सरकारी मशीनरी को कुछ नहीं समझते या फिर किसी मंत्री या राजनेता से संपर्क रखते हैं। ऐसे के आगे नगर निगम भी नतमस्तक रहती है। यह हम नहीं खुद नगर निगम के अधिकारी ही कहते हैं। अगर किसी घटना को लेकर इन पर आंच भी आती है तो नगर निगम के अधिकारी खुद ही मामले को रफा-दफा करने में लग जाते हैं, क्योंकि इन पर प्रेसर उच्च अधिकारियों एवं राजनेताओं का रहता है। अब देखना यह है कि यह दर्रा कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, या फिर उच्च अधिकारी संज्ञान लेंगे।

श्री खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा आज



खुलासा फर्स्ट... देवास

श्री मनकामेश्वर महादेव भक्त मंडल द्वारा श्री खाटू श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा का आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। आयोजन मंडल की ममता मोदी ने बताया श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर पुराना बस स्टैंड से निशान यात्रा 19 मार्च को नगर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी।

यात्रा में बाबा का भव्य दरबार सजाया जाकर पावन ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। बाबा के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति भजन मण्डली द्वारा दी जाएगी। निशान यात्रा में रास्ते भर रंग, गुलाल, इत्र व पुष्प वर्षा भक्तों पर की जाएगी। मण्डल की कमलाबाई मोदी, कमलेश व्यास, उमा पंडय, हंसा जोशी, रमा बंसल, भारती पाठक, मोनिका पोरवाल, मधु पोरवाल, साधना विजयवर्गीय, सारिका मोदी, मधु व्यास, अर्चना व्यास, पूजा व्यास, मंगला पाण्डेय, सोनू व्यास आदि ने धर्मप्रेमी भक्तों से निशान यात्रा में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है।

मोहनधाम मंदिर से वाहन रैली

भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव चैतीचंड शहर में धूमधाम से मनाया जाएगा। सिंधी समाज के इस महापर्व पर पूज्य सिंधी हिंदू पंचायत द्वारा 6 दिवस तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया

जाएगा। जानकारी देते हुए खूबचंद मनवानी ने बताया कि श्री झूलेलाल जन्मोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आज रविवार को प्रातः 9 बजे श्री मोहनधाम मंदिर से वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली में प्रमुख रूप से सिंधी युवा संगठन, सिंधी महिला मंडल, सिंधी समाजजन, श्रद्धालुगण शामिल होंगे। वाहन रैली जयप्रकाश मार्ग, तीनबत्ती चौराहा, बस स्टैंड, जवाहर चौक, जनता बैंक, गांजाभांग चौराहा, सुभाष चौक, नावेल्टी चौराहा, सयाजी द्वार से होते हुए सिंधु भवन ट्रस्ट पहुंचेगी। यहां समाज के ब्राह्मणों द्वारा ध्वज पूजन एवं भगवान श्री झूलेलाल जी की महाआरती की जाएगी। वहीं 20 मार्च को दरिद्रनारायण का भंडारा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगा। रात्रि 8.30 बजे से सिंधी से देवास की यात्रा नाटक का मंचन होगा। 21 मार्च को देश भक्ति व सिंधीयत की थीम पर फेंसी ड्रेस तथा लॉर्ड झूलेलाल नाटक का मंचन होगा। 22 मार्च को कला पर्व की सिंधी महिला मंडल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। जबकि चैतीचंड पर 23 मार्च को भगवान झूलेलाल जी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी तथा बहराणा साहब के पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन होगा। 24 मार्च को पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। पूज्य सिंधी हिंदू पंचायत अध्यक्ष विष्णु तलरजा, सचिव अशोक पेशवानी ने सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील सिंधी युवा संगठन एवं सिंधी महिला मंडल सहित समाजजनों से की है।

सयाजी द्वार पर नववर्ष का स्वागत होगा वेद मंत्रों से

खुलासा फर्स्ट... देवास | ललित कला के लिए समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती विक्रम संवत् 2080 का अभिनंदन करेगी। देवास के हृदय स्थल सयाजी द्वार पर बुधवार दिनांक 22 मार्च को नव वर्ष के प्रथम प्रभात पर प्रातः ठीक 5.45 पर दीप प्रज्वलन के साथ सुप्रसिद्ध शास्त्री गायक नमिता शिर्के का शास्त्रीय गायन, सूर्य आराधना कथक नृत्य तथा भारतीय कालगणना का वैज्ञानिक

आधार पर उद्बोधन के साथ भगवान सूर्यदेव को सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ अर्घ्य दिया जाएगा। सयाजी द्वार परिसर तथा मुख्य स्थानों पर आकर्षक रंगोली, आकर्षक सजा के साथ सामूहिक गुड़ी पूजन होगा।

मंगल तिलक तथा गुड़, धनिया, नीम पत्ती का प्रसाद वितरित होगा। हर्ष ध्वनि पटाखों के बीच नव वर्ष का स्वागत किया जाएगा। शुभकामना दी जाएगी। पूर्व संध्या अर्थात्

21 मार्च सायं 7.30 से रात्रि 10 बजे तब भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें देश के सुप्रसिद्ध लोक गीत गायक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दयाराम सिरोलिया का गायन व सुप्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु प्रफुल्ल गहलोत के विद्यार्थी कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। अय्यप्पा मंदिर द्वारा केरल तथा भरतनाट्यम नृत्य, गायन-वादन, लघु नाटिका आदि की आकर्षक प्रस्तुति भी होगी।

नवरात्रि में भक्तों को होगी परेशानी

बस स्टैंड पर शौचालय की हालत अत्यंत दयनीय

खुलासा फर्स्ट... देवास

बस स्टैंड परिसर में पांच माह से अधिक समय से सुलभ कॉम्प्लेक्स तोड़कर नया बनाया जा रहा है। निर्माण धीमा होने से यात्री सहित स्थानीय लोगों को समस्या हो रही है। दूसरी ओर सार्वजनिक शौचालय के सामने पांच से छह दिनों से गड्ढे खोद दिए गए, जिसके कारण आए दिन लोग गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे हैं। सामाजिक संस्था नेशनल यूनिटी ग्रुप के संस्थापक अनिलसिंह ठाकुर ने बताया कि नगर निगम की लापरवाही के चलते यात्रियों और बस स्टैंड पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य

विगत पांच माह से अधिक समय से कछुए की चाल से चल रहा है। बस स्टैंड पर चलित शौचालय वाहन खड़ा है जो काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उस शौच में जाने वाले यात्रियों को पानी की व्यवस्था नहीं होने के साथ साफ-सफाई का भी अभाव है। खासकर महिलाओं को शौच करने में काफी परेशानी होती है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे सिर्फ कुंभकरणीय निंद सोए हुए हैं। बस स्टैंड पर ठेकेदार द्वारा शौचालय के सामने गड्ढे खोद दिए गए, जिसके कारण रात्रि में लाइट बंद होने कारण लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। बस स्टैंड परिसर में यात्रियों के लिए निगम द्वारा वाटर कूलर की व्यवस्था की गई, लेकिन उक्त कूलर आधे से ज्यादा समय बंद रहता है।



ठाकुर ने आरोप लगाया कि होटल संचालकों की निगम अधिकारियों से सांठगांठ के चलते बस स्टैंड पर पानी की बोतल बेचने के चक्कर में जान बूझकर वाटर कूलर को बंद कर दिया

जाता है। जिससे पानी के लिए लोग दर-दर भटकते रहते हैं। बस स्टैंड परिसर के सभी पंखे बंद हो चुके हैं। साफ-सफाई की व्यवस्था चरमरा रही है। गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ

है। शौचालय की हालत अत्यंत दयनीय स्थिति में है। लोगों को बदबू आती है, आखों में जलन की शिकायत है, कीटनाशक दवाई, फिनाइल, डीडी पाऊडर का छिड़काव साल में मात्र दो बार राष्ट्रीय पर्व या फिर नगर निगम को स्वच्छता आवाड़ के लिए उचित साफ सफाई होती है, तब किया जाता है। नेशनल यूनिटी ग्रुप के अनिलसिंह ठाकुर, सुनील सिंह ठाकुर, हट्टेसिंह दरबार, सत्तू यादव, अनिल वर्मा, डॉ. धीरज वर्मा, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, पंडित अनिल मिश्रा, अभिजीत सिंह गौड़, जयसिंह, सत्यराज सिंह आदि ने महापौर, निगम आयुक्त एवं सभापति से अपील की नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। निगम द्वारा बस स्टैंड पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

पीथमपुर में दवा बनाएगी मुंबई की एनक्यूब

300 करोड़ के निवेश में नहीं आई कोई परेशानी

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का ये दावा सच साबित हुआ है कि मप्र में निवेश में उद्योगपतियों को कोई प्रशासनिक परेशानी नहीं आएगी। मुंबई की दवा कंपनी एनक्यूब एथिकल को कोई परेशानी नहीं आई। जमीन आवंटन से लेकर प्लांट लगाने तक सभी वक्त पर हुआ। कंपनी ऑइनमेंट, लोशन, क्रीम, जैल और सॉल्यूशन बनाती है।

कंपनी के एमडी मेहुल शाह कल इंदौर आए और स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क में मिली जमीन देखी। उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि उन्हें यहां प्लांट लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई। वे मुख्यमंत्री के मुंबई रोड शो में उनकी वादों से प्रभावित हुए और जब प्लांट लगाने यहां आए तो सारा काम बड़े आराम व तेज गति से हो गया। अभी उन्होंने 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगस्त में प्लांट शुरू होने के बाद 100 करोड़ रुपए का निवेश और किया जाएगा। पहले चरण में कंपनी में करीब 400 लोगों को प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। शाह ने कल इंदौर में प्रदेश में उद्योगों को लेकर बन रहे इको सिस्टम की तारीफ की। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया भी तेजी से हुई है। शाह ने बताया कि पिछले साल के अंत में मुंबई में सीएम



शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद यहां निवेश की योजना बनाई। जमीन सहित अन्य अनुमतियां मिलने के बाद काम शुरू किया है। प्रदेश में उद्योगों को लेकर अच्छा माहौल है।

17 देशों में सप्लाय होगी दवाएं

दवा कंपनी एनक्यूब एथिकल का उत्पादन गोवा में होता है। पीथमपुर में कंपनी का दूसरा प्लांट लगेगा। दवाएं यूएस, यूके, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान, हांगकांग, स्पेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, पोलैंड और कनाडा सहित करीब 17 देशों में एक्सपोर्ट होगी। देश की बड़ी कंपनियों को भी सप्लाय किया जा रहा है। पीथमपुर में कंपनी को 2 लाख वर्गफीट जगह आवंटित हुई है। इसमें दवाओं के उत्पादन के साथ रिसर्च व डेवलपमेंट के काम भी होंगे।

तीन दिवसीय गारमेंट मशीनरी प्रदर्शनी का आयोजन

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एक्सपोएशिया इवेंट कंपनी द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय गारमेंट मशीनरी प्रदर्शनी का आयोजन दशहरा मैदान में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक मालिनी गौड़, कलेक्टर इलैया राजा टी ने गतदिवस किया। तीन दिवसीय प्रदर्शनी 18 से 20 मार्च तक सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में देश-विदेश के कई गारमेंट मशीनरी निर्माता शामिल हो रहे हैं। स्विंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन के अतिरिक्त कई तरह की अत्याधुनिक



प्रौद्योगिकी वाली मशीनें प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगी। कंपनी सीईओ मनोज सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया।

बिजासन माता मंदिर पर नवरात्रि में मेले की तैयारी



खुलासा फर्स्ट... इंदौर। बिजासन माता मंदिर पर नवरात्रि मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके चलते रविवार को नगर निगम के इंजीनियर डी आर लोधी, इंजीनियर लक्ष्मीकांत बाजपेई एवं जोन 16 के जोनल अधिकारी विनोद अग्रवाल ने मंदिर पहुंचकर जायजा लिया। इसके साथ ही वहां आधे-अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से पूरा करने के निर्देश दिए।

लक्ष्य ओवरसीज एजुकेशन संस्था का शुभारंभ

लक्ष्य व बेहतर शिक्षा ही सफलता का मूलमंत्र : मंत्री दत्तीगांव

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

विदेश में पढ़ाई और जॉब करना हर भारतीय छात्र का सपना होता है, यह उनके करियर को अलग दिशा देता है। विदेश में पढ़ाई के दौरान छात्र जहां अपने इंटरनेशनल नेटवर्क को बढ़ाने से लेकर नई संस्कृति का अनुभव करते हैं, वहीं अपनी शिक्षा और करियर को भी लाभ पहुंचा सकते हैं।

यही कारण है कि प्रतिवर्ष विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य ओवरसीज एजुकेशन जो कि एक विदेशी शिक्षा का पारदर्शिता के साथ मार्गदर्शन देने वाली अग्रणी संस्था ने कल इंदौर सहित पुणे, लुधियाना, चंडीगढ़ और बड़ोदरा में अपनी नवीन शाखाओं का शुभारंभ किया।

इंदौर एवं अन्य शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए मध्यप्रदेश शासन के उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह



दत्तीगांव ने कहा कि बेहतर शिक्षा ही सफल जीवन का मूलमंत्र है। बच्चों पर अपने सपने प्रतिरोपित नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए माता-पिता को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और सपनों को पूरे करने के लिए उचित शिक्षा अनिवार्य है।

रजनीश पाटीदार मैनेजिंग डायरेक्टर, लक्ष्य ओवरसीज एजुकेशन बताया कि हमने पिछले 5 सालों में कई विद्यार्थी जो विदेश से शिक्षा लेना चाहते हैं उन्हें सही

तरीके से विश्वविद्यालयों में एडमिशन कराकर उन्हें उनके सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाया है।

24 घंटे 365 दिन
खुलासा फर्स्ट
पक्का इंदोरी अखबार

CLASSIFIED

ऑनलाइन बुक करें:- 88189-56789

स्कैप खरीदना है

सभी प्रकार का स्कैप खरीदा जाता है

लोहा, भंगार, एल्युमीनियम, पीतल, तांबा, सभी प्रकार की मशीनरी, शटर, चैनल गेट, प्लास्टिक, पेपर की रद्दी और सभी प्रकार का स्कैप

थोक और रिटेल दोनों अच्छी कीमत पर बेचने के लिए संपर्क करें-

संपर्क: 98935 03317
98264 89441 (6102)

सरकार फाइनेंस सर्विस

होम लोन, लोन अगेन्स प्रॉपर्टी, न्यू कार लोन, सेकंड कार लोन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन, मुद्रा लोन-सभी प्रकार के लोन करवाये जाते हैं।

लक्ष्मी फाइनेंस & डेली कलेक्शन

संपर्क: कमल वर्मा 81090 33000

Contact Us: 7900299047

MAGIC SHOW

FULL ENTERTAINMENT

JADUGAR DEVSHREE

CHARITY, SCHOOL, BIRTHDAY PARTY, CORPORATE PUBLIC CITY, AWARENESS & BIG STAGE MAGIC SHOW

24 घंटे 365 दिन
खुलासा फर्स्ट
पक्का इंदोरी अखबार

अब आप बच्चों के जन्मदिन की खुशियां बांट सकते हैं आपके अपने अखबार खुलासा फर्स्ट के साथ नि:शुल्क

संपर्क करें:- 88189-56789, 0731-4046789
आप हमें E-Mail भी कर सकते हैं
khulasafirst@gmail.com

INDIAN CAR BAZAR

श्री वालाजी कार

SALES & PURCHASE OF 4 WHEELERS ON COMMISSION BASIS

10, Indrashree Complex, Navlakha, Indore
Mo.: 94250 60170, 99810 60170, 94250 66625, 99774 80176
Email: indiancarbazar87@gmail.com • www.indiancarsbazar.com

जाहिर सूचना

अब खुलासा फर्स्ट अखबार में जाहिर सूचना दीजिए मात्र

₹ 500 में

स्टैंडर्ड साइज 1 कॉलम 6 सेमी.

संपर्क करें:- 88189-56789, 0731-4046789
आप हमें E-Mail भी कर सकते हैं
khulasafirst@gmail.com

एक नजर में....

बोरिंग की केबल काटकर ले गए बदमाश

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। तेजाजी नगर पुलिस ने बोरिंग की केबल काटने वाले अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज किया है। फरियादी सादिक पटेल निवासी नायता मुंडला ने पुलिस को बताया अज्ञात बदमाश उनकी बोरिंग में लगी 900 फीट की केबल चुरा ले गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मंगलसूत्र और पर्स लूटा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। दो थाना क्षेत्रों में महिलाओं के साथ कल लूट हुई। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय महिला से बदमाश मंगलसूत्र लूट ले गए। लीलाबाई निवासी बिजलपुर ने पुलिस को बताया एबीसीडी मल्टी के पास से गुजर रही थीं। तभी अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर आया और उनका मंगलसूत्र झपट कर भाग गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। दूसरे मामले में विजय नगर थाने को फरियादी भावना ने बताया स्कीम नंबर 54 स्थित बड़ौदा बैंक के पास पैदल जा रही थी। एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश आए और उनके हाथ पर झपट्टा मार पर्स छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

विदेश यात्रा के नाम पर चूना

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। विजय नगर थाने में विदेश यात्रा के नाम पर रुपए हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। सर्वेशमोहन पुरोहित निवासी लसूडिया ने पुलिस को बताया अनुभव द्विवेदी की अपोलो प्रीमियम मल्टी में यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ट्रेवल कंपनी है। उन्हें कुछ दिन पहले अनुभव ने फोन कर कहा था वह उनकी कंपनी की सदस्यता लेते हैं तो उन्हें विदेश व परिवार को गोवा यात्रा कराएगा। अनुभव ने दो बार में उनसे तकरीबन 70 हजार रुपए ले लिए। रुपए वापस मांगे तो अनुभव ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ऑफिस आना भी बंद कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर रही है।

नौकरी के नाम पर धोखा

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर बदमाशों ने चूना लगा दिया। विवेक मरमत निवासी पंचम की फैल ने पुलिस को बताया गगन यादव नामक व्यक्ति ने फोन कर कहा उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग सकती है लेकिन 40 हजार रुपए खर्च करना होंगे। विवेक ने आरोपी को रुपए दे दिए। बाद में आरोपी मुकर गया और पैसे देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एमआईजी क्षेत्र के छोटी खजरानी में 45 साल के दिलीप रोकड़े के साथ भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई।

हवालात में बुरी गुजरी अय्याश की रात

ड्रग्स वाली आंटी का बेटा यश दुष्कर्म और एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार
खुलासा फर्स्ट... इंदौर

ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन के फरार इनामी बेटे यश जैन को विजयनगर पुलिस आखिरकार दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर ले आई। इंदौर कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लेगी। आरोपी दो साल से

एनडीपीएस एक्ट और बलात्कार के मामले में फरार था। पुलिस ने दोनों ही मामलों में उसकी गिरफ्तारी ले ली है। कल तक बड़ी होटलों में ड्रग्स पार्टियां आयोजित करने वाले इस अय्याश की रात हवालात में बड़ी बुरी गुजरी। उसे मच्छरों ने परेशान करके रख दिया। औदने को कंबल तक नहीं मिला।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन के बेटे यश जैन को गिरफ्तार किया था। कल विजय नगर पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार कर इंदौर ले आई। देर रात उसका एमवाय अस्पताल में दुष्कर्म के मामले में मेडिकल करवाया गया। उसके खिलाफ 21 साल की कॉलेज छात्रा ने नशीली दवाई पिलाकर दोस्त के साथ उससे दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आज उसे कोर्ट में



ड्रग्स वाली आंटी का फरार इनामी बेटा यश गिरफ्तार

प्रीति जैन के खिलाफ हुआ था बड़ा खुलासा

वहीं ड्रग्स माफिया आंटी उर्फ प्रीति जैन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ था कि उसने ड्रग्स का कारोबार मुंबई-गोवा और दिल्ली तक जाल फैला रखा है। संभवतः आंटी ने बेटे के जरिए अधिकांश ट्रिस्ट स्पॉट्स को भी कवर कर रखा था। जैसे मुंबई-गोवा और दिल्ली के अलावा शहर के आसपास से ट्रिस्ट स्पॉट्स पर भी ये हाई-प्रोफाइल युवक-युवतियों के समूह को पार्टियों में नशा उपलब्ध कराते थे।

पेश कर रिमांड लिया जाएगा। पुलिस को उससे एनडीपीएस एक्ट केस में पूछताछ करना है। यश जैन ड्रग्स की पार्टियां आयोजित कर छात्र-छात्राओं को ड्रग्स की लत लगाकर अपनी मां प्रीति जैन के जरिए ड्रग्स सप्लाय करता था। इसके कई पेडलर भी थे। पुलिस इन्हीं सब के बारे में उससे पूछताछ करेगी। टीआई रविंद्र गुजर के अनुसार प्राथमिक पूछताछ में यश जैन ने बताया कि इंदौर से भागकर

वह मुंबई गया था। वहां होटलों में रूका और जमकर नशा किया। पैसे खत्म होने लगे तो दिल्ली पहुंचा और वहां फरारी काटी। हालांकि इस दौरान वह छोटा-मोटा काम करके जी रहा था। यश जैन को रात में हवालात में रखा गया। उसे कम्बल भी नहीं दिया गया। मच्छरों ने उसे जमकर परेशान किया। अब उससे पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है।

बेटे की शादी में लिया कर्ज चुकाना था

मालिक के 4 लाख चुराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

मालिक की कार से 4 लाख रुपए चुराने वाले ड्राइवर को बाणगंगा पुलिस ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने बेटे की शादी में लिए 5 लाख का कर्ज चुकाने के लिए यह हरकत की थी।

बाणगंगा टीआई राजेंद्र सोनी के मुताबिक 17 मार्च को फरियादी ऋषभ दोषी ने रिपोर्ट की थी पिता अनिल दोषी अपनी फैक्ट्री मेटल प्रोफाइल, सेक्टर एफ के लिए घर से बैग में 4 लाख

रुपए लेकर कार से निकले थे। कार ड्राइवर राजेंद्र पंडित चला रहा था। घर जा कर बैग चेक किया तो उसमें रखे रुपए गायब थे। पुलिस ने अज्ञात चोर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें ड्राइवर राजेंद्र पंडित कार से कुछ सामान निकालते दिखाई दिया। सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और फरवरी में बेटे की शादी में लिए 5 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए घटना कारित करना बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस का 'घर छोड़कर न जाओ' अभियान

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

पुलिस आमजन को जागरूक करने अलग-अलग अभियान चला रही है। कल द्वारकापुरी पुलिस ने महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए 'घर छोड़कर न जाओ' अभियान चलाया, जिसमें विशेष तौर पर क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुईं।

थाना प्रभारी द्वारकापुरी ने अहीरखेड़ी दिग्विजय मल्टी के आई ब्लॉक में नाबालिग बालिकाओं और परिजन को महिला संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें उनकी सुरक्षा, उपाय और महिला हेल्पलाइन

की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया बालक-बालिका बहकावे में घर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके क्या दुष्परिणाम होते हैं।

सायबर क्राइम के बारे में भी जागरूक किया। बच्चों को गुड टच व बेड टच के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक अलका मेनिया उपाध्ये, उप निरीक्षक सपना डोडिया, महिला आरक्षक अनीता, महिला सैनिक ममता, क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, समस्त मोहल्लों की महिलाएं और बालक-बालिकाएं शामिल हुईं।

वियोग में बीबीए की छात्रा ने लगाई फांसी

प्रेमी की होली पर हुई थी डूबने से मौत
खुलासा फर्स्ट... इंदौर

भंवरकुआं थाना क्षेत्र में बीबीए फर्स्ट ईयर छात्रा ने प्रेमी के वियोग में फांसी लगा ली। जानकारी अनुसार मृतका का नाम प्रिया विश्वास निवासी झालावाड़ हाल पता रणजीत सिंह कॉलेज हॉस्टल है। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक सुसाइड नोट मिला है जिसमें छात्रा ने जिक्र किया है वह कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ने वाले अनूप नगर के छात्र से प्रेम करती थी। उसकी होली के दिन डूबने से मौत हो गई थी। तब से वह उसके वियोग में है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।



एक किराएदार ने दूसरे को मारी ब्लेड

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। कल रात तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक मल्टी के किराएदार भिड़ लिए। एक किराएदार ने दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है। जानकारी अनुसार संजय पिता कैलाश सावले निवासी वंदना नगर को कल रात परिचित एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। परिचितों के मुताबिक संजय पर मामूली विवाद में मल्टी के ही मोहन राणे ने ब्लेड से हमला किया। पुलिस आरोपी को तलाश रही है।

अहाते में साथी पर चाकू से हमला करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के महुनाका स्थित अहाते में शराब पीते समय साथी युवक पर चाकू से हमला करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाजी की घटना अहाते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के महुनाका चौराहा स्थित अहाते में बैठकर

आरोपी अजय, बलराम और फरियादी प्रीतम शराब पी रहे थे। इसी दौरान अजय और बलराम का प्रीतम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी फरियादी पर चाकू से हमला कर भाग गए। मामले में पुलिस ने प्रीतम की शिकायत पर अजय और बलराम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर दोनों को कल गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिपोर्ट खंगाल रही है।



24 घंटे 365 दिन
खुलासा फर्स्ट
पक्का इंदोरी अखबार

इंदौर की हर खबर के लिए स्कैन करें

Whatsapp Group में जुड़ें

88189 56789

इंदौर स्तर पर रहे प्रथम, नेहरू स्टेडियम में हुई कॉम्पिटिशन

टीआई तहजीब काजी ने बॉडी बिल्डिंग में मारी बाजी



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

फिजिक को लेकर चर्चित दबंग टीआई तहजीब काजी आए दिन कुछ न कुछ यूनिक्स करते हैं। फिटनेस रेस हो या दिनभर के काम के बाद देर रात वर्जिश। कल टीआई तहजीब काजी ने एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बाजी मारी।

कल नेहरू स्टेडियम में 63वीं एमपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप (2023-2024) थी। इसमें संयोगितागंज थाने के टीआई तहजीब काजी ने भी भाग लिया। 70-74 किलो भार वर्ग में टीआई काजी ने प्रथम स्थान हासिल कर प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी अपने नाम की। हालांकि एमपी लेवल पर मदारपुरा अमानी अखाड़े के उस्ताद ताहिर मेव के भतीजे शाहरुख ने आल इंडिया वेट में मिस्टर मप्र का किताब अपने नाम किया। इससे पहले शाहरुख ने 15 फरवरी 2023 को आलीराजपुर में ओपन नेशनल और 12 मार्च 2023 को बुरहानपुर में मिस्टर इंडिया खिताब जीता था। अन्य शरीर साधकों की तरह टीआई तहजीब काजी लगातार वर्जिश करते हैं।



एमसी स्टेन के शो में बवाल, आयोजक ने की शिकायत

करणी सैनिकों पर एफआईआर

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

एमसी स्टेन के शो में हंगामा करने वाले करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। शुक्रवार रात करणी सेना ने शो का जमकर विरोध किया। जय-जय सियाराम के नारे लगाए। करणी सेना ने एमपी स्टेन के गानों में गाली-गलौज का आरोप लगाया। विरोध के बाद रैपर एमसी स्टेन को शो छोड़कर जाना पड़ा। हंगामे की सूचना पर लसूडिया पुलिस भी पहुंची। स्थिति को देखते हुए बल प्रयोग भी करना पड़ा था। लसूडिया में एक निजी होटल में बिग बॉस 16 के विजेता रैपर एमसी स्टेन उर्फ अलताफ शेख का कन्सर्ट था। बड़ी संख्या में फैंस भी थे। इस बीच करणी सेना भी पहुंच गई। बड़ी संख्या में करणी सेना के सदस्य होटल में पहुंचे और जमकर विरोध जताया। इससे अफरा-तफरी मच गई।



अश्लील गाने गाता है स्टेन : करणी सेना

करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया रैपर एमसी स्टेन अपने गानों में गालियों और अभद्र भाषा का उपयोग करता है। ऐसा कर वो इंदौर और देश के युवाओं को क्या सिखाना चाहता है। हमने इवेंट अरेंज करने वालों और होटल को पहले ही चेतावनी दी थी। गाली देने का विरोध किया तो भाग गया। उसे जानकारी थी गाली दूंगा तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। गाली देकर वो हम लोगों को चैलेंज कर रहा था।



खुलासा फर्स्ट में प्रमुखता से प्रकाशित खबर

दिग्विजय, राजा सिंह पर केस

होटल के सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मीनारायण पिता भगवान दास की शिकायत पर पुलिस ने करणी सेना के दिग्विजय सिंह, राजा सिंह सहित अन्य पर केस दर्ज किया है। लक्ष्मीनारायण ने पुलिस को बताया शुक्रवार रात 8.30 बजे एमसी स्टेन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके बाद करणी सेना के लोग आए और हंगामा करने लगे। इस पर एमसी स्टेन चले गए। करणी सेना ने हंगामा, गाली-गलौज की और गमले भी तोड़े। लिखित शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद व अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। मौके पर पहुंची लसूडिया पुलिस को भीड़ हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। लाठियां फटकाईं। इस दौरान युवाओं की टोलियां भागती नजर आईं। रोड पर भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

शराब के आदी अघेड़ ने आत्महत्या की

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक अघेड़ ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गजानंद पिता भवराव (55) निवासी न्यू गौरी नगर को परिजन बेहोशी की हालत में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन के मुताबिक बेरोजगार होने के साथ वह शराब का भी आदी था। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

बिजली गिरने से नाबालिग किसान की मौत

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। कल रात शिप्रा थाना क्षेत्र के मांगलिया में आंधी-तूफान के दौरान गिरी बिजली से एक लड़के की मौत हो गई। मृतक का नाम सचिन पिता दिनेश पटेल (17) निवासी बिसाखेड़ी है। कल शाम वह खेत से घर जा रहा था तभी बिजली की चपेट में आ गया। सचिन 12वीं क्लास में पढ़ता था। वह सुबह ही परीक्षा देकर आया था। खाना खाकर खेत पर काम करने गया था। शिप्रा पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

किसान की हत्या के मामले में पांच और गिरफ्तार

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। जमीन विवाद में देपालपुर थाना क्षेत्र में एक दलित किसान की दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि शनिवार को देपालपुर तहसील के ककवा गांव में स्थित 0.5 हेक्टेयर भूमि 2002 में अनुसूचित जाति के 25 व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, लेकिन बाबू सिंह राजपूत और उनके परिवार के सदस्य उस पर अपना दावा कर रहे थे, जबकि जमीन मायाराम बागरी के नाम पर थी। जब मायाराम कोर्ट के आदेश पर जमीन का कब्जा लेने पहुंचा तो उस पर हमला हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई।



मृतक मायाराम बागरी और अन्य घायलों सहित अनुसूचित जाति के सभी लोग पड़ोस के खिमलावादा गांव में रहते हैं और जब भी वे ककवा गांव में पट्टे पर आवंटित खेत पर जाते थे तो बाबू सिंह और उसके परिवार के सदस्य आपत्ति जताते थे। इसे लेकर आरोपियों के खिलाफ 2003 में भी केस दर्ज किया गया था। बाबू सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि ककवा गांव में जमीन उनकी है। हालांकि वे सभी मामले हार गए, क्योंकि भूमि सरकारी थी और अनुसूचित जाति के 25 लोगों को पट्टे पर आवंटित की गई थी, लेकिन बाबू सिंह ने जमीन कर कब्जा कर वहां मकान बना लिया था। जब मायाराम ने इसका विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया। उधर, आरोपी बाबू सिंह का अवैध रूप से बनाया गया मकान भी प्रशासन ने तोड़ दिया। शनिवार को भारी पुलिस बल के बीच मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने बाबू सिंह, पवनसिंह, तूफान, गोकुल, नागसिंह, जितेंद्र, गनीबाई, रेखाबाई, नन्नीबाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जिनमें से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मृतक मायाराम बागरी और अन्य घायलों सहित अनुसूचित जाति के सभी लोग पड़ोस के खिमलावादा गांव में रहते हैं और जब भी वे ककवा गांव में पट्टे पर आवंटित खेत पर जाते थे तो बाबू सिंह और उसके परिवार के सदस्य आपत्ति जताते थे। इसे लेकर आरोपियों के खिलाफ 2003 में भी केस दर्ज किया गया था। बाबू सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि ककवा गांव में जमीन उनकी है। हालांकि वे सभी मामले हार गए, क्योंकि भूमि सरकारी थी और अनुसूचित जाति के 25 लोगों को पट्टे पर आवंटित की गई थी, लेकिन बाबू सिंह ने जमीन कर कब्जा कर वहां मकान बना लिया था। जब मायाराम ने इसका विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया। उधर, आरोपी बाबू सिंह का अवैध रूप से बनाया गया मकान भी प्रशासन ने तोड़ दिया। शनिवार को भारी पुलिस बल के बीच मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने बाबू सिंह, पवनसिंह, तूफान, गोकुल, नागसिंह, जितेंद्र, गनीबाई, रेखाबाई, नन्नीबाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जिनमें से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विवाद में युवकों पर चाकू से किया हमला

खुलासा फर्स्ट... इंदौर। लसूडिया थाना क्षेत्रों में कल आपसी विवाद में बदमाशों ने 4 युवकों को चाकू मार घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक आशीष पिता राधेश्याम 28 पिनकल ड्रीम्स, मयूर पिता अजय 27 निवासी निपानिया, पंकज पिता एमएस सिसोदिया 26 निवासी निपानिया और आयुष प्रताप पिता राजकुमार 25 निवासी निपानिया घायल अवस्था में एमवाई भर्ती कराया था। घायल के साथ मौजूद एक युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने आपस में टकराने की बात पर उनसे विवाद किया। इसके बाद उन पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

फाइनेंस कंपनी के अधिकारी का मोबाइल उड़ाया

खुलासा फर्स्ट... इंदौर | दस साल तक अमेरिका में रहकर सालभर पहले इंदौर लौटे एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारी इंदौर में सक्रिय ठक-ठक गैंग का शिकार हो गए। दरअसल हुआ यह कि परसों शाम अनूप नगर निवासी अचिंत खंडेलवाल रिंग रोड पर खजराना चौराहे से रेडिसन चौराहे की ओर जा रहे थे। रोबोट चौराहे पर रेड सिग्नल होने

से कार रोकी, तभी एक युवक वहां पहुंचा और कार का कांच खटखटाकर उन पर भड़कने लगा। वह अचिंत पर पीछे किसी को टक्कर मारकर आने का आरोप

लगाए। वह कुछ समझते उससे पहले कंडक्टर साइड से खुले कांच से दूसरा युवक अंदर हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। उन्होंने माफी मांगी और इस बीच सिग्नल ग्रीन हो गया। सिग्नल ग्रीन होते ही दोनों युवक गायब हो गए। आगे बढ़ने से पहले जैसे ही उनकी नजर बाजू वाली सीट पर रखे उनके मोबाइल पर पड़ी तो वह गायब था। मौके पर ही कार रोककर अचिंत ने बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वो गायब हो गए। चौराहे के दूसरे छोर पर खड़े पुलिसकर्मियों को शिकायत की तो उन्होंने खजराना थाने जाने को कहा। वहां पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय सिटीजन कॉप ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी।

सट्टेबाजों को 32 करोड़ की टोपी पहना गया सट्टा किंग जयंती मामा पाकिस्तान प्रीमियम लीग में खाई मुंह की

मामा बना गया मामू



मुकेश मुवाल

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

सालों पहले इंदौर से क्रिकेट के सट्टेबाजी की शुरुआत करने वाला महेश्वर का जयंती मामा सैकड़ों सट्टेबाजों को करोड़ों की चपत लगाकर भूमिगत हो गया। आंकड़ा भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि 32 करोड़ हैं। इससे प्रदेशभर के बड़े सट्टेबाजों में हड़कंप है। क्रिकेट के सट्टे की दुनिया का बेताज बादशाह कहे जाने वाले जयंती मामा के डिफाल्टर होने के पीछे की वजह पाकिस्तान प्रीमियम लीग बताई जा रही है, जिसमें सट्टेबाजी में उसे नुकसान हुआ है। अचानक से आई इतनी बड़ी देनदारी ने उसे भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया।

क्रिकेट के सट्टेबाजों में जयंती मामा का नाम कौन नहीं जानता। आज से करीब आठ-दस दिन पहले इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ था। इसमें बड़ा उलटफेर करते हुए बांग्लादेश जीत गई। चूंकि बांग्लादेश की जीत के चांस कम थे और इसके भाव ज्यादा थे। जयंती मामा ने कई बड़े सट्टेबाजों के सौदे लिए थे। इसके चलते जयंती मामा पर बड़ी देनदारी निकल गई। इस झटके से संभला भी नहीं था कि वह पाकिस्तान में चल रहे पाकिस्तान प्रीमियम लीग में सट्टेबाजी करने लगा।

मात्र 20 ओवर में ही 250 से ज्यादा रन बनने के बाद भी सामने वाली कमजोर से कमजोर टीम उससे ज्यादा रन बनाकर जीत हासिल करने लगी। नतीजा ये हुआ कि इसमें बुकियों के सारे समीकरण फैल हो गए और अच्छे-अच्छे बुकी निपट गए। चूंकि पाकिस्तान प्रीमियम लीग में दुबई से जमकर सट्टेबाजी होती है। खिलाड़ी भी इससे अलग नहीं होते। ऐसे में एकतरफा मैचों ने जयंती मामा की हालत पतली कर दी। सट्टेबाजी से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इसमें जयंती मामा 32 करोड़ से निपट गया। उसे बुकियों और ग्राहकों को मोटा रुपया चुकाना है। इनमें कुछ बुकी तो ऐसे हैं जो प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप रखते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जयंती मामा ऐसा नाम है जिसने सट्टेबाजों के साथ कभी बेमानी नहीं की।

जयंती मामा की आवाज यानि काम हो गया

तीन दशक पहले (करही) महेश्वर से इंदौर आकर सराफा में रिश्तेदार की चाय की दुकान से बैठक शुरू की। यहां क्रिकेट के सट्टेबाजों से सट्टेबाजी के गुर सीखे और खुद इस खेल में हाथ आजमाने उतर गया। शुरुआत में कमीशन पर ग्राहक इंदौर के बड़े बुकियों को उतारे। धीरे-धीरे खुद खाईवाली करने लगा। समय के साथ जयंती मामा ऐसा नाम हो गया की उसकी आवाज पर सौदे मांडे जाने लगे। क्रिकेट के सट्टे में हार-जीत तो ठीक सेशन के खेल में भी वह बड़े से बड़े सौदे लेने लगा। धीरे-धीरे जयंती मामा क्रिकेट के सट्टा किंग के साथ बड़ा सेटलर भी बन गया। क्रिकेट के सट्टे का कितना भी बड़ा लेन-देन हो। देश के किसी भी प्रदेश या शहर का हो। जयंती मामा के पास उसका हिसाब हो जाता था। हवाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यानि मामा के पास इतना रुपया होता था।

घाटे में जा रहे वेंडरों का फूटा गुस्सा

प्रेस्टिज कॉलेज प्रबंधन पर लगाए कई आरोप



खुलासा फर्स्ट... इंदौर

पिछले कुछ दिनों से प्रेस्टिज कॉलेज में चल रहे मंथन इवेंट में काउंटर लेने वाले वेंडरों का गुस्सा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ फूट पड़ा। उन्होंने प्रबंधन झूठ बोलकर ऊंचे दामों पर काउंटर देने का आरोप लगाते हुए नुकसानी की भरपाई नहीं देने और सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।

कल रात डेढ़ दर्जन से ज्यादा वेंडर प्रेस्टिज कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। आरोप था कि कॉलेज में मंथन इवेंट चल रहा है। इसके लिए प्रबंधन उन्हें स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया था। बताया था कि कार्यक्रम सुबह ११ से रात ११ बजे तक चलेगा। इस दौरान उसमें अच्छी खासी भीड़ आएगी। प्रतिदिन हजारों रुपए की बचत होगी। वे लोग बातों में आ गए और कार्यक्रम में काउंटर ले लिए। ये काउंटर 50 से 80 हजार और डेढ़ लाख रुपए लेकर के दिए गए। बीते दो दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भीड़ शाम 7.30 से रात 10 बजे तक रहती है। इसमें भी लोग बाहर से खा पीकर आते हैं। कार्यक्रम में म्यूजिक सुनकर चले जाते हैं। वहीं, रात 9 बजे बाद कॉलेज प्रबंधन एंट्री बंद कर देता है, जिसके चलते 300 से 400 लोग बाहर ही खड़े रह जाते हैं। दो दिनों निकल गए लेकिन काउंटर लेने के लिए जमा किए रुपए तक नहीं निकल पाए हैं। हम लोगों ने 20 काउंटर बंद कर दिए हैं। शिकायत करने पर प्रेस्टिज कॉलेज की कोई फेकल्टी बात तक नहीं कर रही है। स्टूडेंट काउंसिल अमन को आगे कर दिया जाता है।

मामला संस्कृत महाविद्यालय का, अजाक थाने में की शिकायत

अतिथि ग्रंथपाल ने प्राचार्य और प्राध्यापक पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में अतिथि ग्रंथपाल को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अजाक थाने में प्राचार्य और एक प्राध्यापक पर शिकायत करते हुए आरोप लगाए हैं।

संस्कृत महाविद्यालय के अतिथि विद्वान ग्रंथपाल टीकाराम टांकले (40) ने 14 मार्च को अजाक थाना टीआई से लिखित शिकायत की थी। इसमें बताया कि वे 11 सितंबर 2021 से महाविद्यालय में पदस्थ हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अरुणा कुसुमाकर हैं। वहीं, प्राध्यापक डॉ. प्रबोध जोशी हैं। इन दोनों पर आरोप लगाते हुए टांकले ने बताया कि 11 मार्च 2023 को कॉलेज में नैक संबंधी चर्चा के लिए

प्राचार्य कक्ष में बैठक थी। सभी प्राध्यापक और अतिथि विद्वान मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में प्राचार्य कुसुमाकर ने द्वेषतापूर्वक आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ईमानदारी से काम नहीं करता हूँ, लाइब्रेरी का काम धीमा चल रहा है। उन्होंने प्राचार्य और ग्रंथालय प्रभारी डॉ. विमला गोयल को स्टाफ की कमी होना और कम्प्यूटर ऑपरेटर के कम समय देना कारण बताया तो प्राचार्य भड़क गईं। उन्हें दलित कहते हुए बोलीं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने पर उसका काम (किताबें उठाना, साफ-सफाई करना, शौचालय साफ करना) भी मुझे ही करना होगा। विरोध किया तो धमकाया कि भिंड-मुरैना की महिला हूँ, सारे हथकंडे जानती हूँ, तूझे मरवा सकती हूँ। प्राचार्य का साथ डॉ. प्रबोध जोशी ने भी दिया और मुझे जातिसूचक शब्द कहे।

मनमाना माफीनामा लिखने का बनाया दबाव :

डॉ. कुसुमाकर ने इससे पहले 16 महीने का 4000 मानदेय भी रोक दिया था। कॉलेज परिसर में स्थित मंदिर में पूजा-पाठ नहीं करने देते हैं। 11 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते नहीं आया तो मुझे नोटिस जारी कर मेडिकल मांगा, जबकि नियमानुसार अतिथि विद्वान होने के चलते उन पर ये लागू नहीं होता। उन्होंने प्राचार्य की बात नहीं मानी तो नौकरी खा जाने की धमकी दी गई। प्राचार्य ने खुद मुझ पर मनमाना माफीनामा लिखने का दबाव बनाया और अन्य प्राध्यापकों से भी दबाव बनवाया। 14 फरवरी को भी बेइज्जत करते हुए लाइब्रेरी में अनुपस्थित रहने के आरोप लगाए। इसके अलावा भी जबरदस्ती झूठे नोटिस जारी कर मानसिक रूप से कई बार प्रताड़ित किया। अजाक टीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

खुलासा फर्स्ट के नाम से धमकाने वालों से...
सावधान

खुलासा फर्स्ट के नाम से यदि कोई भी आपको धमकाता है, डरता है या किसी भी रूप में आपसे रुपयों की मांग करता है तो...

88189 56789

पर WHATSAPP या CALL करें...

